भारत सरकार से रजिस्टर्ड RNI NO.UPBIL/2021/83001

वार्ष-०३ अंक-२९१ मुरादाबाद, 11 February, 2024 (Sunday)

मूल्य- ०३ रूपये पृष्ठ-०८

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीजीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,अलीगढ़, संभल, श्रावस्ती,अलीगढ़ और उत्तराखंड

कोहरा सीजन से निरस्त ट्रेनों ने बाकी में बढ़ा दी भीड़...

मध्य प्रदेश के 26000 स्वच्छाग्रही अपनी....

page 7

Summer Nail Care Tips

सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना

वोट बैंक खिसक जाने के डर से नहीं जाते अयोध्या



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप पर कहा कि हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। राम पर हमारी आस्था है। राम के नाम के बिना तो कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता है। जब अयोध्या में

राजस्थान में निर्जी बैंक में 2.50

करोड़ रुपये के गबन मामले में

प्रबंधक सहित दो लोग गिरफ्तार

प्रतापगढ जिले में एक निजी बैंक में

लगभग 2.50 करोड़ रुपये के घोटाले

का पदार्फाश करते हुए बैंक के

प्रबंधक सहित दो लोगों को गिरफ्तार

किया। पुलिस ने शनिवार को यह

जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि

इस मामले में 46 लाख रुपये की

नकदी भी जब्त की गयी है। प्रतापगढ़

के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार

ने यहां एक बयान में बताया,

धरियावद में आईसीआईसीआई बैंक

में हुए लगभग 2.50 करोड़ रुपये के

बैंक घोटाले का पदार्फाश कर बैंक

मैनेजर प्रशांत काबरा (32) व उदयपुर

के हिस्ट्रीशीटर रहे आरोपी जालम चन्द जैन (72) को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी के अनुसार, गबन

की राशि से आरोपी हिस्ट्रीशीटर ने उदयपुर-नाथद्वारा रोड पर एक फार्म हाउस खरीदा। उन्होंने बताया कि मामला उस समय सामने आया जब बैंक के एक ग्राहक के खाते से चार

फरवरी को 32 लाख रुपये निकाल

लिये गये। अधिकारी के मुताबिक,

बाद में जब बैंक के अन्य ग्राहकों

के खातों की जांच की गई तो गबन

की जानकारी हुई। अधिकारी ने

बताया कि मामला सामने आने के

बाद बैंक अधिकारियों ने छह फरवरी

को बैंक के प्रबंधक प्रशांत काबरा

के खिलाफ थाना धरियावद में

मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया

कि जांच में पाया गया कि विभिन्न

खाता धारक जब बैंक में एफडी और

केसीसी करवाते थे ।

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने

फास्ट

मंदिर नहीं बना था तब भी हम वहां जाते थे और अब भी जाते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष (अखिलेश यादव) वोट बैंक की राजनीति के चलते अयोध्या नहीं जाते थे। वो डरते हैं कि अयोध्या जाएंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश

ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें वोट बैंक की चिंता है इसलिए वो अयोध्या नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा के दौरान सदन में बोल रहे थे।

सरकार ने चित्रकूट, नैमिषारण्य सहित प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले स्थानों के विकास के लिए बजट का एलान किया है। 2025 में होने वाला महाकुंभ, कुंभ मेला 2020 से भी अच्छा हो इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हम जाति और धर्म देखकर काम नहीं करते हैं। यही रामराज्य हैं। मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा पांच फरवरी को वित्त वर्ष 2024पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार सात लाख 36 हजार करोड़ रुपये है। ये बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता के आकार को देखते हुए उनके जीवनस्तर को उठाने के संकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से 2017 तक यूपी की जीडीपी 12 से 13 लाख करोड थी पर मात्र सात वर्षों में आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के बाद भी यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेन-देन बढ़ा है। प्रदेश में निवेश है कि 19 फरवरी को हम 10 लाख रुपये की निवेश परियोजनाओं का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर अब दो प्रतिशत आ गई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों मे कोई विजन नहीं था इसलिए प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में आता था पर हमने यूपी को अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अखिलोश यादव के आरोप कि सरकार हर बार प्रदेश

25 के लिए पेश किए गए बजट का माहौल बढ़ा है। यही कारण का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करती है पर उसे खर्च नहीं कर पाती है। इस पर नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष दिसंबर 2023 के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे जबिक बजट तो मार्च 2024 तक का है। अपने भाषण के प्रारंभ में मुख्यमंत्री योगी ने चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन और पी वी नरसिंह राव को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज भी कसा कि अब उनके साथ आने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि लोगों को पता है कि वो धोखा ही देंगे। सीएम योगी रालोद के एनडीए में शामिल होने की तरफ

राष्ट्रपति 19 फरवरी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करेंगी

पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रपति 19 फरवरी को दोपहर करीब एक बजे पोर्ट ब्लेयर में आईएनएसउत्क्रोश पहुंचेंगी जहां उनका स्वागत लेफ्टिनेंट गवर्नर एडिमरल (सेवानिवृत्त) डी. के. जोशी, अंडमान



और निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ एयर मार्शल साजु बालाकृष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंडमान और निकोबार द्वीप समृह की पांच दिवसीय यात्रा पर 19 फरवरी को यहां पहुंचेंगी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। वर्ष 2022 में भारत के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुर्मू की यह द्वीपसमूह की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति 19 फरवरी को स्वागत लेफ्टिनेंट गवर्नर एडिमरल (सेवानिवृत्त) डी. के. जोशी, अंडमान निकोबार (सीआईएनसीएएन) के कमांडर-इन-चीफ एयर मार्शल साजु बालाकुष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 19-23 फरवरी तक अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सेल्युलर जेल, स्वराज द्वीप जिसे हैवलॉक द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, कैम्पबेल बे, इंदिरा प्वाइंट (भारत का सबसे दक्षिणी बिंदू) का दौरा करेंगी। द्वीप के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न समुदायों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति की द्वीपसमूह की निर्धारित यात्रा के तहत केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), गर्म हवा के गुब्बारों में यात्रा समेत अन्य गतिविधियों

पर प्रतिबंध लगा दिया।

दोपहर करीब एक बजे पोर्ट ब्लेयर में

आईएनएसउत्क्रोशह्न पहुंचेंगी जहां उनका

इशारा कर रहे थे। पांच साल रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के रहे

दुनिया ने भारत की ताकत देखी:पीएम

दो ट्रक और बस की टक्कर में 6 की मौत और कई घायल

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा

शुक्रवार आधी रात के बाद दो ट्रक और एक निजी बस की टक्कर में



शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब दो बजे हुआ। लोहे से लदे एक ट्रक ने दो गोवंश लेकर श्रीकालहस्ती जा रहे अन्य टक में पीछे से टक्कर मार दी। कावली उप-संभगीय

पुलिस अधिकारी वेंकट रमन ने कहा, लोहे से लंदे ट्रक के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और विपरीत दिशा से आ रही निजी बस को भी टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य ने नेल्लूर के सरकारी में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पांच वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे। यह बहुत कम होता है कि सुधार हों, काम हों और हम बदलाव

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन आज लोकसभा में संबोधित किया। उन्होंने बीते पांच साल के कामकाज और कोरोना महामारी के दौरान देश की जनभावना और जिजिविषा का जिक्र कर कई अहम बातें कहीं।

देखें। सत्रहवीं लोकसभा के माध्यम से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे भरोसा है कि देश सत्रहवीं लोकसभा को जरूरत आशीर्वाद देता रहेगा। अध्यक्ष जी, कभी-कभी सुमित्रा जी हास्य करती थीं, लेकिन आपका चेहरा को अपनी आंखों के सामने होता हुआ हमेशा मुस्कराता हुआ रहता है। अनेक

परिस्थितियों में आपने संतुलित भाव से इस सदन का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, आक्रोश और आरोप के पल आए, लेकिन आपने पुरे धैर्य के साथ पूरी स्थितियों को सुझबुझ के साथ संभाला और सदन को चलाया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। इस पांच वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पुरी मानव जाति ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है या नहीं... ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना भी संकट का काम था। देश के काम को आपने रुकने नहीं दिया। सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो

गति देनी चाहिए, वो भी बनी रहे, इस काम में सदन की जो भूमिका है, वह पीछे न रहे। इसे आपने कुशलता से संभाला। माननीय सांसदों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हं कि उस कालखंड में देश की स्थिति को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। जब प्रस्ताव आया तो सभी सांसदों ने इसे एकमत से स्वीकारा। देशवासियों को सकारात्मक संदेश देने के लिए और समाज को विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपने वेतन में तीस फीसदी कटौती का निर्णय किया। हम सभी सांसद बिना गाली खाते रहते थे कि बाहर इतने में खाना मिलता है और संसद की कैंटीन

में इतना सस्ता मिलता है। आपने निर्णय किया कि सभी के लिए कैंटीन में समान रेट होंगे। सांसदों की फजीहत और मजे लेने वालों से आपने हमें बचा लिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी सभी ने चर्चा की। लेकिन ये आपका नेतृत्व है, जिसने इस काम को आगे बढाया। उसी का परिणाम है कि आज देश को नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। संसद के नए भवन में विरासत का अंश और आजादी के पहले पल को जीवंत रखने के लिए सेंगोल रखने का काम हुआ। यह भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा आजादी के प्रथम पल के साथ जोड़कर रखेगा।

लोकसभा में बोले अमित शाह

भारत की संस्कृति और रामायण को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता



नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शनिवार को नियम 193 के तहत ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर के निर्माण और श्रीराम लला की प्राण

आंदोलन को वाचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ही यह परवान चढ़ा और स्वप्न सिद्ध हुआ। राम जन्मभूमि का इतिहास लंबा। राजाओं, संतों, निहंगों और कानून विशेषज्ञों ने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इन सभी योद्धाओं का आज हम विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं।

के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। 1528 से हर पीढ़ी ने इस

प्रतिष्ठाह्न विषय पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसी का जवाब नहीं दूंगा। मैं मन की बात और जनता के मन की बात देश के

सामने रखना चाहता हूं। वह आवाज, जो वर्षों से अदालत के कागजों में दबी हुई थी। 22 जनवरी 2024 के बारे में भले ही कुछ लोग कुछ भी वर्षों के लिए ऐतिहासिक दिन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि 1528 से चल रही संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की जीत का दिन है। 22 जनवरी 2024 का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का दिन है। देश की कल्पना राम और राम चरित्र के बगैर नहीं हो सकते। राम और राम का चरित्र भारत के जनमानस का प्राण है। संविधान की पहली प्रति से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श भारत की कल्पना तक राम

संस्कृति और रामायण को अलग करके देखा ही नहीं गयाः अमित शाह उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और रामायण को अलग करके देखा ही नहीं गया। कई भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों में रामायण का जिक्र है। कई सारे देशों ने रामायण को स्वीकारा और आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्थापित किया है। राम और रामायण से अलग देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही थी। दशकों तक लड़ाई चली। तकरीबन

330 साल के बाद कानुनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हैं। राम जन्मभृमि का इतिहास लंबाः शाह अमित शाह ने कहा कि आंदोलन से अनभिज्ञ होकर इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को वाचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ही यह परवान चढ़ा और स्वप्न सिद्ध हुआ। राम जन्मभूमि का इतिहास लंबा है। राजाओं, संतों, निहंगों

और कानून विशेषज्ञों ने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इन सभी योद्धाओं का आज हम विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं। 'कहा जाता था कि भाजपा ऐसे ही वादा करती है' उन्होंने कहा कि गिलहरी की तरह कई लोगों ने अपना योगदान दिया 1990 में जब आंदोलन ने गति पकड़ी उससे पहले से ही भाजपा का देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर प्रस्ताव पारित करके कहा था कि राम मंदिर के निर्माण को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गहरी खाई में

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयुवी) के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में

गिरने से एक नवजात सहित तीन लोगों की मौत हो गयी और 12 अन्य लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों से खचाखच भरा उन्होंने बताया कि तीन लोग दयाकृष्ण (36), सिंबता देवी (30) और 15 दिन का नवजात



इस दुर्घटना में मारे गये जबकि 12 वाहन शुक्रवार देर शाम कोगुलाबगढ़-मचैल मार्ग पर हाकू अन्य लोग घायल हो गये।

गांव के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बेहतर उपचार के लिए जम्मू के सरकारी चिकित्सा कॉलेज (जीएमसी) में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों से खचाखच भरा वाहन शुक्रवार देर शाम कोगुलाबगढ़-मचैल मार्ग पर हाकू गांव के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने बताया कि तीन लोग दयाकृष्ण (36), सबिता देवी (30) और 15 दिन का नवजात इस दुर्घटना में मारे गये जबिक 12 अन्य लोग घायल हो गये।

महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएः उद्धव ठाकरे मुंबई। ठाकरे ने कहा, गणपत

गायकवाड़ का वीडियो लीक हो गया। यह हर कोई देख सकता है कि घोसालकर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि गोलियां किसने चलाईं। शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर शनिवार को हमले तेज करते हुए उसे बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। ठाकरे ने दो दिन पहले मुंबई के दिहसर में

उनकी पार्टी के नेता अभिषेक घोसालकर की। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में



जाने की घटना के मद्देनजर यह मांग

मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर गुंडों को बचाने का भी आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा, अगर पुलिस को ख़ुली छूट दी जाए, तो वह 24 घंटे में सभी गुंडों को सलाखों के पीछे डाल सकती है, लेकिन गुंडों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने घोसालकर की हत्या के तरीके पर भी सवाल उठाए। शिवसेना (यूबीटी) नेता विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर (40) की बृहस्पतिवार शाम उत्तरी उपनगर बोरीवली (पश्चिम) में एक

सामाजिक कार्यकर्ताह्न ने फेसबुक लाइवह्न सत्र के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावर मौरिस नोरोन्हा ने कुछ देर बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ठाकरे ने कहा कि फेसबुक लाइव से यह पता नहीं चलता कि नोरोन्हा ने घोसालकर की हत्या की। उन्होंने कहा, घोसालकर की हत्या के बाद नोरोन्हा ने आत्महत्या क्यों की? ठाकरे ने कहा, मौरिस के पास कोई लाइसेंसी हथियार नहीं था, लेकिन उसने गोली चलाने के लिए अपने अंगरक्षक की पिस्तौल का इस्तेमाल किया।

मुसुनुरु (आंध्र प्रदेश)। नेल्लूर जिले के मुसुनुरु टोल प्लाजा पर छह लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। हादसा

On the brink

Generally known for its turquoise waters, pristine beaches and coral reefs, the name of the Maldives as a destination for Indian tourists is currently mud. The archipelago's complex political scenario has raised concerns not only within the country but also in the larger geopolitical landscape. The looming impeachment motion against Md Muizzu, the Maldives President, coupled with a shocking fall in Indian tourist numbers, underscores a shifting dynamic in the Indian Ocean region. The developments have triggered apprehensions about the country's stability. Given its strategic location, the internal political dynamics are crucial not only for the Maldives but also for the Indian Ocean region. As China seeks to expand its influence, India finds itself at a strategic crossroads requiring thoughtful and proactive measures to counterbalance these developments. The core of the problem is Muizzu's desire to distance himself from India and align with China. The Maldives is the newest country to fall prey to Chinese designs: The dragon has been steadily increasing its economic and infrastructural footprint in the region by way of the Belt and Road Initia tive (BRI), with significant investments in key projects. This has raised concerns in India about China's expanding influ ence in a region traditionally considered India's sphere of influence. The Maldives has asked India to remove its military base, which is a big loss for India and will make China stronger in the region. Though India has flexed its soft power and dissuaded its tourists from going to Maldives, that approach may not work with China's support to the Maldives. But the position of the Maldives has become a little untenable as it earns the major share of revenue from tourism; the recent decline in Indian tourist numbers has hit it hard Holding the top spot just three weeks ago, Indian tourist arrivals have now slipped to the fifth position. India and the Maldives share ethnic, linguistic cultural, religious and commercial links steeped in antiquity. The relations have been close, cordial and multi-dimensional: India was among the first nations to recognise the Maldives after its independence in 1965 and to establish diplomatic relations with it. Now, India must adopt a nuanced and strategic approach to maintain influence in the Maldives and counterbalance China's expanding footprint. Strengthening diplomatic ties with our neighbour is paramount. Besides, India should bolster economic cooperation by offering viable alternatives to Chinese investments. Initiatives that promote sustainable development and address the Maldives' economic concerns can help strengthen economic ties. It goes without saying that India would have to back the pro-India Maldivian leaders; for example the pro-India Maldivian Democratic Party (MDP) has recently claimed a landslide in Male's mayoral election This is indeed a good sign for India and, if Muizzu is impeached, India could have the chance to re-establish its cordial relations with the Maldives that it has always had.

Editorial Myanmar: India's strategic dilemma

Worried over the influx of refugees and insurgents from across the porous border owing to the unabated crisis, the Indian government has decided to fence the Myanmar border to discontinue the free movement regime (FMR), as with the Bangladesh frontier which may act as a deterrent and preventive measure to control the existing menace. India must act cautiously: Given Maldives President Mohamed Muizzu's honeymoon with China, India needs to evolve a realistic strategic blueprint in line with the 'Neighbourhood First' policy to save Myanmar from China's overtures to the junta through the Belt and Road Initiative (BRI), besides supporting border areas rebels by brokering peace between warring groups and army generals in this violenceplagued country.India took a cautious stand when the army, known as Tatmadaw, engineered a coup on February 1, 2021. India had diplomatically and indirectly supported the junta, refraining from openly supporting the democratic forces led by Aung San Suu Kyi, which has now put it in a dilemma. India faces the challenge of checkmat-

ing China, which is dan-

gerous because it supports some ethnic groups.In this complex scenario, "OPERA-

Shan state were followed by the AA opening a front against the army in its base in Rakhine state

thereby challenging the junta. The Brotherhood



TION 1027" was underon the west coast. It was taken in December 2023 a coordinated attempt by insurgents to spill over to by 'The Three Brotherhood Alliance' compris-Kayah State bordering ing the Ta'ang National Thailand to the east and Liberation Army, AA the Sagaing region and and the Myanmar Na-Chin State, bordering Intional Democratic Allidia. It was in violation of ance Army, which had a ceasefire in force beshaken the junta. An oftween the armed groups fensive against the junta and the junta over a year. had dealt it a devastating The bold move threatens blow, prompting China the military's control to support it. The Three over crucial trade routes Brotherhood Alliance' to China thereby hitting had captured key roads its interests. It was a weland military posts, hitting come step for China the cash-strapped junta's when the army led by revenues and obstructing Min Aung Hlaing detroop movements. Rethroned the elected govports from the conflict ernment, but now the zone suggested that the pendulum has swung in surprise attacks on the the opposite direction,

been successful in cutting off the junta from a stretch of land that handles about 40% of bilateral border trade with China; around \$1 billion of the trade comes from natural gas piped into China. The fighting erupted recently in Shan, Kachin and Chin states, which are situated in the country's north as well as in Rakhine state in the west. Three Brotherhood fighters have claimed they have overrun dozens of military posts across the region and seized major roads leading in and out besides forcing the surrender of over 100 soldiers of the Myanmar army, demoralizing the junta. The armed groups have taken the fight to the Tatmadaw in Kayah State in the country's east which is important to the Myanmar army. India must rethink its strategy: India will need to rethink its old-fashioned position towards Myanmar before the fallout threatens its interests. India feels the US should seize the moment to enhance engagement with India in Myanmar and work to alleviate the humanitarian situation thereby supporting the anti-junta forces and establishing a federal democracy. India has tried to maintain equidistance between the military generals and pro-democracy political parties to ensure that the junta does not fall into China's lap.Junta to hit back:. The army generals were not ready for the alliance's huge offensive, which set off a chain reaction, cornering the junta. Armed groups are reported to have taken control of fifty towns and villages and 100 posts. Army chief Hlaing has promised to undertake a counterattack on terrorists in the north, which might expose the junta's weakness. Armed rebellion by ethnic armed organizations has dealt a diplomatic blow to the army generals who have been exposed; China will be directly impacted. The Ukraine war had come as a blessing in disguise for the junta as the US and EU were preoccupied with it. The Hamas attack on Israel has further alienated Western powers from Myanmar but the attack by armed groups may change the entire scenario. The National Unity Government (NUG) formed by opposition lawmakers in Burma is considered close to the West, which is feeling encouraged after the successful offensive by the armed groups. China's double speak: China has urged Myanmar to restore border stability even as the junta's conflict with armed groups intensifies. Myanmar has been asked by China to 'cooperate' with it to maintain stability on the common borders. China's official stand is intriguing; "As a friendly neighbour, China sincerely hopes that Myanmar will restore stability and development as soon as possible, and supports all parties in Myanmar to properly resolve differences within the constitutional and legal framework and achieve reconciliation through dialogue."

Tread the WTO quagmire with caution

Committee on Agriculture (CoA) of the World fertilizer and even direct Trade Organization transfers are nontober 2, 2023, in PSH program, govern-Geneva, the European ment agencies like the Union (EU) agreed to consider India's demand for a permanent solution to public stockholding (PSH) program for food security. This is a significant change of stance since March 2023, when the EU along with the USA and Canada had challenged it. The issue will be taken up for deliberation in the 13th ministerial conference (MC) of the WTO (World Trade Organization), scheduled from February 26-29, 2024 in Abu Dhabi. The MC is the highest decision-making body of the global trade watchdog (read: WTO) that includes 164 member countries. While, the USA and EU countries want a comprehensive discussion on agriculture encompassing the value-chain, market access, and export restrictions besides the PSH program, India has categorically stated "it won't negotiate any other issue in the agriculture sector till a permanent solution on PSH is found".It has also conveyed that support measures given to its poor farmers like in-

In a meeting of the put subsidies such as on electricity, irrigation, Food Corporation of India (FCI) buy agriproduce such as wheat, rice/paddy, and coarse cereals from farmers at the minimum support price (MSP) and distribute it at a subsidized price of Rs 2/3/1 per kg respectively to meet the needs of India's poor and vulnerable population under the National Food Security Act (NFSA) that was enacted in 2013. From January 1, 2023, these staple foods are given to the beneficiaries 'free'; initially in force till December 31, 2023, this arrangement has been continued for five years till December 31, 2028. The excess of MSP plus handling, storage and distribution cost over the realization from the sale (that is, Rs 2/3/1 per kg prior to January 1, 2023, and 'zero' thereafter) is paid as a subsidy from the Union Budget. This can be bifurcated into two components (a) subsidy to the farmer, which is the excess of MSP of, say, rice over its international price also known as External Reference Price (ERP) in

WTO parlance and (b) subsidy to the food consumer, being the excess (WTO) – held on Oc- negotiable. Under the paid which currently is agricultural production 'nil'. The WTO is concerned with (a) branded as "product-specific" subsidies. It requires some explanation. The international price/ERP of any commodity is based on global demand-supply forces and is determined in a competitive manner. All farmers irrespective of their country of location are expected to receive this price. In case, because of the intervention by the government of a member country say India, the farmers therein receive a price/ MSP higher than this, they are presumed to have been subsidized to the extent of excess of MSP over ERP. The WTO is also concerned with subsidies on agricultural inputs like fertilisers, seeds, irrigation, power, etc., referred to as "non-prodspecific" subsidies. The developed countries argue that such subsidies distort international trade; hence these need to be curbed. Their argument found acceptance at the WTO. Accordingly, under the Agreement on Agriculture (AoA), the total of product and non-product-specific

subsidies or aggregate measurement support (AMS) is capped at 10 of ERP over the price per cent of the value of for a developing country (for developed countries, this threshold is 5 per cent). If a member country gives AMS over 10 per cent, it is a violation. The AoA came into force in 1995. For India, until 2005, MSP was less than ERP. Thereafter, MSP has been higher than ERP and, in the last decade, this gap widened. During 2018-19, in the case of rice, for instance, AMS was at 11 per cent, exceeding the 10 per cent cap. During 2019-20, it was even higher at 13.7 per cent.For over a decade or so, India along with other developing countries has been making efforts at WTO to wriggle out of the situation. In the 9th Ministerial Conference (MC) held in Bali (2013), it secured sanction for a "peace clause". It said, "If a developing country gives AMS in excess of 10 percent, no member will challenge this until 2017 when the WTO would look for a permanent solution."In the General Council (GC) held in December 2014, this sanction

was modified to say

stay till a permanent solution was found." However, the peace clause comes with sevsubmission of data on food procurement, stockholding, distribution and subsidies. These also include establishing that subsidies are not "trade distorting." Besides, programs implemented after 2013 are not covered under the ambit of the 'peace clause'. India has invoked the 'peace clause' several times at the WTO for breaching the 10 per cent ceiling in case of subsidy on rice - the latest being for the marketing year 2020-21. However, developed countries have objected to such invocation. They want India to be more transparent about its PSH program and put in place safeguards to prevent 'illegitimate' exports But, this can't go on ad infinitum. The WTO should go for a permanent solution within a time-bound manner. In fact, the MC held in Bali (2013) had implicitly given a deadline of 2017 ".....no member will challenge this until 2017 when the WTO would look for a permanent solution." Unfortunately, the GC "The peace clause will held in December 2014

deferred it indefinitely. India has done right by insisting on a deadline now. However, its eral riders, such as the stance for the 13th MC isn't the right way to go India is trying to delink PSH from a comprehensive look at agriculture. It is attempting to delink things that are intertwined with each other. The PSH program involves buying food from the farmers and distributing it to the beneficiaries. Here, we are talking about the entire supply chain involving procurement, handling storage, distribution and so on. So, the issues of market access, and sale in the domestic and international markets can't be brushed aside. India's PSH program is open-ended under which the government's agencies buy the highest possible quantities of wheat and rice from the farmers at ever-increasing MSP. Since these purchases are unrelated to the requirement under the NFSA (courtesy vote bank politics), surplus stocks with agencies are inevitable which they dispose of by auctioning to private traders etc under the Open Market Sale Scheme (OMSS) Under OMSS 'all the bidders are compulsorily asked to give an undertaking that they won't export it'.

कोहरा सीजन से निरस्त ट्रेनों ने बाकी में बढ़ा दी भीड़, यात्रियों को परेशानी

सीजन के मद्देनजर निरस्त से जननायक एक्सप्रेस को लिंक, जनता एक्सप्रेस, बरेली— ट्रेनों के बहाल होने में अभी बदले रूट से चलाया जा रहा दिल्ली एक्सप्रेस और देरी है जबकि, मंडल है। सूत्रों का कहना है कि अब काठगोदाम– दिल्ली मेल को मुख्यालय से होकर आने–जाने लंबी दूरी की ट्रेनों की अचानक निरस्त कर दिया गया वाली ट्रेनों में इन दिनों भीड बढ़ गयी है। दैनिक यात्री तो मजबुर होकर दुसरे साधन का सहारा ले रहे हैं। शनिवार को कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के नहीं चलने का भी रेल सेवा पर व्यापक असर देखा गया। उत्तरांचल संपर्क क्रांति के दोनों फेरे निरस्त होने से यात्री परेशान हुए। नई दिल्ली से चलने वाली काशी विश्वनाथ के निरस्त होने से मुख्य रूप से वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले गुस्से में दिखे। निशा रानी, प्रयांशी और लाइनपार के जर्नादन को यात्रा निरस्त करनी पड़ी। जनसेवा एक्सप्रेस को रेल प्रबंधन ने निर्धारित

मुरादाबाद,। को हरा रेल पटरी मरम्मत की वजह लालकुआं एक्सप्रेस, रामनगर



समयबद्धता में तेजी के साथ है। उधर, हावड़ा से देहरादून में चलने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गयी है, जबकि कोहरा सीजन के चलते निरस्त की गयी ट्रेनें मार्च माह के पहले सप्ताह से चलाई जाएंगी। बात सीतापुर— लखनऊ सेक्शन में अगर शनिवार की ही करें तो

सुधार हुआ है। ऐसे में रूटीन के बीच चलने वाली उपासना एक्सप्रेस के यात्रियों को नौ घंटे इंतजार करना पड़ा। अंत्योदय एक्सप्रेस की प्रतीक्षा में भारी संख्या में यात्री स्टेशन पर बैठे रहे। हिमगिरि, दून

में रुकावट को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की है। सीतापुर सेक्शन में ब्लॉक और डायवर्जन से रेल यात्री प्रभावित मुरादाबाद। सीतापुर जंक्शन और सीतापुर सिटी स्टेशन के बीच रेल ब्लॉक का असर ट्रेनों के संचालन पर है। बालामऊ- सीतापुर की स्पेशल ट्रेन (04353 / 54) और बालामऊ- सीतापुर सिटी के बीच चलने वाली (04321 / 22) 13 फरवरी को भी निरस्त है। अमृतसर से दरभंगा के बीच चलने वाली गाड़ी (15212) 12 फरवरी तक रोजा-लखनऊ-बाराबंकी-बुढवल के रास्ते चलेगी। गाड़ी संख्या (15211) 12 फरवरी तक बुढवल-बाराबंकी, लखनऊ– रोजा होकर चलेगी। अमृतसर-गोरखपुर को चलने वाली ट्रेन (22424) 11 फरवरी को रोजा-लखनऊ— बुढ़वल— बाराबंकी रूट से चलेगी। यहा ट्रेन 12

यात्रियों ने रेल प्रबंधन से सेवा

करेगी। अमृतसर- सहरसा एक्सप्रेस (15532) 12 फरवरी को रोजा-लखनऊ-बाराबंकी-बुढ़वल से चलेगी। 12 फरवरी को रास्ते में 55 मिनट रोकी जाएगी ट्रेन 11 फरवरी को इस ट्रेन को बुढवल- बाराबंकी-लखनऊ— रोजा रूट से चलाया जाएगा। कानपुर सेंट्रल से सीतापुर सिटी के बीच चलने वाली (04328) 13 फरवरी को बालामऊ- सीतापुर के बीच निरस्त रहेगी। सीतापुर सिटी– कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बीच ट्रेन संख्या (04327) 13 फरवरी तक निरस्त है। रक्सील से आनंद विहार के बीच चलने वाली (15274) 12 फरवरी को रास्ते में 55 मिनट रोकी जाएगी। सहरसा— अमृतसर के बीच चलने वाली (15531) 11 फरवरी को रास्ते में 57 मिनट रोकी जाएगी। कामाख्या— वैष्णोदेवी एक्सप्रेस 11 फरवरी को कामाख्या स्टेशन से 210 मिनट बाद रवाना

फरवरी को इसी रूट से वापसी

युवाओं ने टेडी बियर देकर किया प्यार का इजहार, बाजारों में भी देखने को मिली रौनक

मुरादाबाद,। वेलेंटाइन वीक बियर को स्वीकार करने वालों के और अपने साथियों को गिफ्ट के चौथे दिन शनिवार को टेडी साथ ही उसे देने वालों के चेहरे बियर डे मनाया गया। इस दिन व्युशी से फूले नहीं समा रहे थे।



को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा। युवाओं ने अलग–अलग रंगों के आकर्षक टेडी बियर देकर दिल का हाल बयां किया। महानगर के बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। रविवार को प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं व अन्य प्रियजनों से प्रॉमिस करके अपने प्यार का वादा करेंगे। इस दिन के लिए युवाओं ने पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। दिन भर बाजारों में रौनक दिखी। टेडी

हाईवे पर मूढापांडे जीरो पॉइंट पर बाइक सवार

टेडी बियर डे पर वेव मॉल, पीवीआर समेत अन्य मॉल में युवाओं की ज्यादा भीड दिखी।इसके अलावा बाजार गुलजार दिखे। टेडी बियर डे को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह दिखा। महानगर के बुधबाजार, टाउनहॉल, कटरा, हरथला आदि बाजारों में टेडी बियर व गिफ्ट आइटम की दुकानों में युवाओं की भीड रही। युवाओं ने अपनी पसंद के टेडी बियर खरीदे

किया। बुद्धविहार निवासी रोहित ने बताया कि उनकी प्रेमिका को टेडी बियर बहुत पसंद है खासकर पांडा, इसलिए उन्होंने पांडा की खरीदारी पहले से ही कर ली थी। उन्होंने अपनी प्रेमिका को जब पांडा दिया तो वह अहसास अलग ही खुशी देने वाले रहा। वहीं दीनदयाल नगर निवासी हिमांशू मिश्रा ने बताया कि आज उनके दो बेटे भी शादी लायक हो गए हैं। लेकिन, उनका अपनी पत्नी के लिए प्रेम आज भी कॉलेज के दिनों जितना है। वह अब भी वेलेंटाइन वीक का हर दिन अपनी पत्नी के साथ खास योजना के साथ मनाते हैं। कल मनाया जाएगा प्रॉमिस डे 11 फरवरी को प्रॉमिस डे अपने साथी से हार्दिक वादे और प्रतिबद्धताएं करने का दिन है। यह आपके रिश्ते की मजबूती पर विचार करने और हर सुख–दुख में एक–दूसरे के साथ खंडे रहने का संकल्प लेने का समय है। जोडे प्यार, वफादारी और समर्थन के वादों का आदान–प्रदान करते हैं, अपने

वीरपुर बरियार में दो पक्षों में जानलेवा हमला, चार घायल

रूट से डायवर्ट कर दिया है।

क्षेत्र के वीरपुर बरियार उर्फ अपने खेत में पौधे लगाने को खरक में शनिवार दोपहर गड्ढे खोदे थे। गड्ढे पटने पर जमीनी विवाद में हुई मारपीट इसरत अली अपने तीन भाइयों



पर वायरल हो रहा है। खेत में लगी फसल के बीच में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें बात बिगड़ गई और दूसरे पक्ष एक पक्ष के चार लोग घायल के मुराद अली और उनके बेटों हुए हैं। इन सभी का सीएचसी ने हमला कर दिया। इसमें में उपचार चल रहा है। घायल पक्ष के इसरत अली ने बताया कि वह अपने खेत में मेड़ किनारे पॉपलर के पौधे लगाने को गड्ढे खोदे थे, जिन्हें दूसरे पक्ष के

का लाइव वीडियो सोशल मीडिया व पिता अमीर हुसैन के साथ खेत पर दूसरे पक्ष के लोगों से समझौता के लिए गए थे, जहां पीड़ित पक्ष के चार लोगों के धारदार हथियार लगने से सिर पर चोट आई हैं। इसमें इसरत अली के सिर में सात टांके लगे हैं। कमरे आलम सिर में मुराद व उनके बेटों ने पाट आठ टांके लगाए गए और उसका

मुरादाबाद। मूंढपांडे थाना दिया था। जबिक मुराद ने भी दाएं हाथ में फैक्चर हो गया है। इनके भाई बाबू के सिर में छह टांके लगे हैं और बाएं हाथ की अंगुली टूट गई है कंधे में डॉक्टर ने उन्हें फैक्चर बताया है। इसी तरह छोटे अली के कमर में चोट आई है। घायल भाइयों का आरोप है कि वह लोग खेत में मारपीट की बात सोचकर नहीं गए थे, जबिक मुराद अली हमला करने की नियत से ही अपने दो बेटे आरिफ व अनीस और अन्य करीब 20-25 लोगों के साथ खेत पर आया था। इनके हाथ में गन्ना काटने वाली धारदार कस्सी, फावडा और लाठी—डंडे थे। इस मामले में थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामला जानकारी में आया है। पीडित पक्ष की ओर से मिली तहरीर के आधार जानलेवा हमले के आरोप में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने हमला करने वाले मुराद और इसके एक बेटे गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य हमलावरों की पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी की पुलिस टीम

दंपती की हादसे में घायल, पति की मौत **म्रादाबाद।** दिल्ली— बच्चे समेत हाईवे पर ही गिर इसमें अमित और उसकी पत्नी पति—पत्नी के पैर कट गए हैं।

लखनऊ नेशनल हाईवे पर बाइक सवार दंपती की ट्रक की टक्कर से घायल हो गए। कुछ ही देर में मौके पर ही तडप कर पति की मौत हो गई। घायल पत्नी और उसके बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार दंपती रामपुर की तरफ जाने के लिए मूंढापांडे जीरो पॉइंट के पास मार्ग क्रॉस कर निकल रहे थे, तभी दिल्ली की तरफ से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार अमित कश्यप पुत्र

पड़ा और उसके पैरों से होकर पुष्पा के पैरों से होकर ट्रक का अमित की तो मौत हो गई है



चंद्रपाल कश्यप (35) पत्नी और ट्रक का टायर निकल गया। टायर गुजर गया। इससे है। अमित छोटा था। उसकी

लेकिन, उसकी पत्नी पृष्पा और एक साल के बच्चे का जिला अस्पताल में उपचार हो रहा है। मृतक मझोला थाना क्षेत्र की मंगूपुरा गांव के रहने वाला है। पुलिस में ट्रक को पकड़ लिया है, जबकि चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतक दंपती अपनी ससुराल टांडा जा रहे थे। दीपू कश्यप ने बताया कि वह दो भाइयों में बड़ा

थी। वह मझोला में ही गंगा हैंडीक्राफ्ट कंपनी में स्टोर कीपर का काम करता था। दीपू कश्यप ने बताया कि करीब 5 साल पहले मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से वह लोग मां के जाने के दर्द से ऊपर नहीं पाए थे कि छोटे भाई अमित की असमय मृत्यु होने का हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि उन दोनों भाइयों के बीच में एक बहन नीतू है, जो मृतक अमित से बड़ी है। दीपू कश्यप ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी पुष्पा कश्यप के हादसे में पैर कट गए हैं।

मैनाठेर के इब्राहिम हेल्थ केयर संचालक के खिलाफ एफआईआर

मुरादाबाद। डिप्टी सीएमओ ने इब्राहिम हेल्थ केयर के संचालक मोहम्मद जीशान के विरुद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मैनाठेर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। शुक्रवार देर रात में दर्ज हुए मामले में डिप्टी सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया है कि एडीएम प्रशासन के निर्देश पर उन्होंने शुक्रवार को ही इब्राहिम हेल्थ केयर का निरीक्षण किया था। यह अस्पताल मैनाठेर कोतवाली के बाजार मैदान में मंदिर के पीछे संचालित किया जा रहा है। संचालक मोहम्मद जीशान की शैक्षिक योग्यता बीएससी नर्सिंग और आमीर हुसैन की इंटरमीडिएट बताई गई है। ये लोग निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मौजूद भी थे। संचालक ने डिप्टी सीएमओ को बताया है कि वह छह महीने से अस्पताल चला रहे हैं। डिप्टी सीएमओ को अस्पताल में मेडिकल स्टोर भी चलता मिला है। अस्पताल में आठ बेड, जिनमें से एक रेडिएंट हिट वार्मर, ऑक्सीजन सिलेंडर एक, मेडिसीन ट्रे, ऑटो क्लेव, सक्शन मशीन स्थापित पाए गए हैं। मौके पर मरीज ओमवती पत्नी ओमकार निवासी 26 / फ नरोदा कुंदरकी जिनकी एलएससीएस सात फरवरी 2024 को अस्पताल में भर्ती पाई गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू, रेलवे को किया जाएगा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित

की अमृत भारत स्टेशन योजना चंदौसी का कायाकल्प करेगी। म्रादाबाद-चंदौसी (44 किलोमीटर) ट्रैक दोहरीकरण के पहले इस रेलवे को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं और पहचान के लिए विकसित किया जा रहा है। रेल सेवा विस्तार के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। यह योजना निश्चित

दृष्टिकोण के आधार पर विकास

तैयार की गयी है। इसी माह अंतरिम बजट में सरकार ने साल 2019 की चयनित रेल दोहरीकरण का धन अवमुक्त कर दिया है। इस मद में 400 करोड़ रुपये व्यय हो रहा है। उधर, बीते साल इस खंड का विद्युतीकरण कर दिया गया, जिससे अब ट्रेनों की गति बढ़ गयी है। इसे रेल खंड का मालवाहक गाडियों के मुख्य रूट के तौर पर प्रयुक्त किया जा रहा है। विभाग की योजना

मुरादाबाद,। केंद्र सरकार की परिकल्पना के आधार पर में इस बात का ऐलान है कि शौचालय, लिफ्ट / एस्केलेटर, देना है। मास्टर प्लान के आधार यात्री सूचना प्रणाली, लाउंज,



स्टेशन तक आसान पहुंच, स्वच्छता, मुफ्त स्थानीय उत्पादों पर यह कार्य किया जाना है।

प्याऊ के लिए नामांकित स्थान, भू-निर्माण जैसी योजनाएं तय हैं। भवन सुधार, स्टेशन को शहर के दोनों तरफ से एकीकृ त करना, मल्टी-मॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक, रूफ प्लाजा की भी परिकल्पना की गई है। लंबे समय में स्टेशन पर सिटी सेंटरों का निर्माण होना है। सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंगहॉल, के लिए कियोस्क की सुविधा एक स्टेशन एक उत्पाद, बेहतर आधुनिकीकरण के लिए देश के

1309 स्टेशनों में चंदौसी स्टेशन भी एक है। स्टेशन पर सुविधा के प्रकार ट्रैफिक सर्कुलेशन में सुधार और सर्कुलेटिंग एरिया (2877 वर्ग मीटर) का सौंदर्गीकरण प्रवेश द्वार का प्रावधान (२६० वर्ग मीटर) दिव्यांग शौचालय सुविधाओं का प्रावधान (15 वर्गमीटर) अग्रभाग एवं उन्नयन कार्यों में सुधार एसी वेटिंग हॉल (82 वर्ग मीटर) का निर्माण शौचालय ब्लॉक (पुरुष एवं महिला) (147 वर्ग मीटर) का

प्रावधान पार्किंग क्षेत्र का प्रावधान (९६८ वर्गमीटर) रैंप सहित 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज मंडल में कुल 17 स्टेशन इस योजना में चयनित हैं। रेलवे की गति शक्ति योजना को स्टेशनों के विकास का जिम्मा सौंपा गया है। पहली बार इस तरह से स्टेशन के कायाकल्प के लिए की योजना पर कार्य शुरू हुआ है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन की तरह चंदौसी को विश्व स्तरीय रेल सेवाओं के लिए चुना गया है।

हल्द्वानी दंगे के आरोपियों को मिले कड़ी सजा, राष्ट्रीय बजरंग

दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन



हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय महामंत्री मनोज व्यास ने किया। मनोज व्यास ने गाड़ियों को फूंक दिया गया। पत्रकारों को बताया कि हल्द्वानी जो की देश बर्दाश्त नहीं में 8 फरवरी को पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद व मजार को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। जो की रक्षा करते हैं और हम सब की

मुरादाबाद,। अंतरराष्ट्रीय एक सरकारी कार्य है। ऐसे सरकारी कार्य में पुलिस प्रशासन पर वहां के स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया। उनकी करेगा। पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार से अलग होकर हम सब की

ऐसे लोगों के द्वारा किया गया कृत्य तो राजद्रोह के अंतर्गत आता है और ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार की संवेदनाएं या सहानुभूति नहीं बजरंग दल के विभाग महामंत्री गौरव सैनी ने कहा कि जिन लोगों ने भारत की सेना व आदि मौजूद रहे।

रक्षा करने वाले ऐसे रक्षों पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया अगर कोई पथराव करता है है। वह देश में रहने योग्य तो उसको बक्शा नहीं जाएगा। नहीं है। उनकी नागरिकता अभिलंब खत्म कर देनी चाहिए और उन्हें निकाल कर देश के बाहर फेंक देना चाहिए। इस दौरान चरण सिंह प्रजापति, दीप खुराना, अमन सैनी, महेंद्र दिखाई देनी चाहिए। राष्ट्रीय सैनी, रोहित, सौरभ, संदीप, कल्वेश, मनोज, रवि, नानू अग्रवाल, कांता प्रसाद, क्रिश

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेत् पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखुँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

संक्षिप्त खबरें

पुलिस ने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा

रिपोर्टर सुमित गुप्ता मंडल ब्यूरो बरेली मो.9458664527 पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में पुलिस को बडी सफलता हाथ लगी जिसमें चोरी का भारी माल सहित पुलिस ने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है दरहसल पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित अपराध रोकथाम अभियान के तहत अमरिया



थानाध्यक्ष ब्रजबीर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को सफलता हासिल हुई जिसमें चार शातिर अभियुक्तों सहित इंजन पम्पिंग सेट चोरी की मोटरसाइकिल 315 बोर तमंचा व कारतूस सहित अवैध असहला भी बरामद किया है जिसमें अमरिया करबे का चर्चित शेरा पुत्र शहजादे हरीश उर्फ भूरा निवासी गौटिया संतोष पुत्र राधेश्याम अंटा गौटिया रफीक पुत्र मो0 उमर निवासी सिरसा को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया है जिस पर हिस्ट्रीशीटर शेरा पुत्र शहजादे की अभियान के तहत भिड़त हुई और शेरा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जबाब में पुलिस की गोली से शेरा पुत्र शहजादे के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया पुलिस की देखरेख में जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है

42 वाँ विशाल श्री हनुमान मेला 2 मार्च से लग रहा है क्यूँ न लिखं सचं राकेश संगल

बुढाना शामली 42 वाँ विशाल श्री हनुमान मेला 2 मार्च से

मार्च तक खेडा मस्तान

थाना फुगाना के पीछे बुढाना शामली रोड पर लगने जा रहा है इस मेले मे बालाजी महाराज के मन्दिर मे यदि तीन दिन 5 दिपक रोज देशी घी के जलने से मन्यता है भक्तजनो की सभी 🖥 मनोकामनाएं पुणँ होती हैं। इस मन्दिर मे दशँन करने भक्तजन दूर दूर से आते है और तीन दिन पूजा पाठ व भजन कीतँन एवम भन्डारे



का आयोजन जब तक मेला रहेगा जब तक भन्डारे होते रहते है भक्तजनो के प्रसाद के लिए।

ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाए गम्भीर आरोप, जांच कर कार्रवाई की मांग

रिठौरा। थाना इज्जतनगर की ग्राम पंचायत अदलखिया के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायतीपत्र देकर आरोप लगाया है। प्रधान हरियाली का दश्मन है। लाखों रूपयों के लिप्टिस,आम, अशोक आदि के हरे-भरे पेड कटवा दिए। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग एवं आलाधिकारियों से की मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन प्रधान ने अब नया खेल शुरू कर दिया है।नहर विभाग की पक्की गूल लगभग–लगभग 600मीटर जिससे किसान नहर के पानी से सेचाई करते थे।उसकी सभी ईंटे निकलवाकर कुछ पुलिया और नाली के निर्माण में उपयोग कर लीं। तथा कुछ अपने निजी खेत में इकट्ठा कर लीं हैं। आरोप है प्रधान द्वारा नाली -पुलिया निर्माण के लिए नयी ईंटों का वजट निकाल कर सरकारी धन हड़प लिया है। जिसकी जांच के लिए त्रिलोकी सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य,इन्द्रपाल, धनवीर, वीरपाल, भगवानदास, पप्पू आदि ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान सजीव उर्फ टनटन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है। हमने सभी कार्य नियम पूर्ण ढंग से किए हैं।सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं।

पूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी

एटा। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी एटा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुद्देशीय हॉल में पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर शान्ति पूर्ण / सौहार्द पूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी। जनपद एटा में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 09.02.2024 को जिलाधिकारी एटा तथा वरिष्ठ



गुलिस अधीक्षक एटा द्वारा पुलिस लाइन स्थित बहुद्देशीय हॉल में जनपद के धर्म गुरुओं तथा संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान बैठक में आये सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से वार्ता कर जनपद में शान्ति तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गयी। मीटिंग में बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ बयान, वीडियो व पोस्ट करने वालों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ मीटिंग में उपस्थित सभी से जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक एटा, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा, क्षेत्राधिकारी नगर मौजूद रहे।

महादेव नर्सिंग कालेज संचालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर NSUI ने कलेक्टर को लिखा पत्र

हर्षवर्धन श्रृंगी ने किया सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़: विजय सोलंकी

आष्टा – शहर के महादेव नर्सिंग कॉलेज के नाम से चल रही फर्जीवाड़े की दुकान को लेकर मामला गरमाता जा रहा है छात्र छात्राओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयुआई) के नेता विजय सोलंकी इस मामले को लगातार उठा रहे हैं सोलंकी ने आज सीहोर कलेक्टर को पत्र लिखकर महादेव नर्सिंग कॉलेज के संचालक हर्षवर्धन श्रृगी पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर

गिरफ्तारी करने की मांग करते

हुए कहा कि लगातर नर्सिंग

रकम वसूल करके अंधकार में रखा जा रहा है न तो कॉलेज छात्र नेता विजय सोलंकी ने

छात्राओं के मुद्दों को प्रमुखता से संचालक हर्षवर्धन श्रृंगी पर

उठाता हैं हाल ही में आष्टा तत्काल मुकदमा दर्ज कर के पास बिल्डिंग है न हॉस्पिटल शहर में नर्सिंग छात्र छात्राओं गिरफ्तार करें क्योंकि आष्टा के साथ धोखाधडी कर उनको शहर के सैकडों छात्र छात्राओं

श्रंगी द्वारा किया गया है जो कि क्षमा योग्य नहीं हैं क्योंकि कई छात्र छात्राएं निम्न वर्ग से हैं जिनके परिजनों ने कर्ज लेकर गहने (जेवरात) गिरवी रख कर कालेज संचालक को पैसे दिए हैं लेकिन कालेज संचालक ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वहीं महादेव कालेज के संचालक छात्र छात्राओं को लगातार धमकियां भी दे रहे हैं अगर किसी छात्र छात्राओं को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हर्षवर्धन श्रृंगी होंगे। विजय सोलंकी ने बताया कि वहीं कालेज बिना बिल्डिंग और अस्पताल के कागजों में अस्पताल और कालेज चलाया जा रहा था साथ ही छात्र नेता सोलंकी ने कलेक्टर से आग्रह किया है

गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए जाता हैं उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें विजय सोलंकी ने कलेक्टर से कि छात्र छात्राओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले हर्षवर्धन श्रृंगी पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करे एवं सभी स्टूडेंट्स के दस्तावेज और फीस वापस करने के निर्देश जारी करने के साथ साथ कालेज संचालक पर जुर्माना लगाकर सभी छात्र छात्राओं को मुआवजा प्रदान करें साथ ही सोलंकी ने पत्र में लिखा कि सभी स्टूडेंट्स को आपसे बहुत उम्मीद हैं की कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे जिससे कि आगे कोई भी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड करने की

कॉलेज द्वारा छात्रों के साथ धोखाधडी का मामला बढ़ते जा रहा है महादेव नर्सिंग कॉलेज द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ बताया कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र भविष्य चौपट करने वाले फर्जी महिला कांग्रेस ने नैना शर्मा एडवोकेट को ब्रज जोन उत्तर प्रदेश महिला शामली सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 12

ने नैना शर्मा एडवोकेट को ब्रज एटा लोकसभा क्षेत्र के लिए

जोन उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस आवेदन दिया है। कार्यवाहक

का प्रदेश महाचिव बनाये पर हर्ष जिला अध्यक्ष ठाकुर अनिल

व्यक्त किया गया। नैना शर्मा सोलंकी ने ब्लॉक अध्यक्ष,और नगर

एडवोकेट प्रदेश महासचिव ब्रज अध्यक्षों से कहा की जल्द से

जोन महिला कांग्रेस ने कहा की जल्द कमेटी और बूथ प्रभारियों

कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी की लिस्ट कांग्रेस कार्यालय पर

एटा जिला कांग्रेस कार्यालय है उसे पुरी तरह निभाउंगी । जमा करे।इंडिया गठबंधन के धान मील वाली गली एटा पर गंगा सहाय लोधी ने कहा की श्री मती ममता राजपूत प्रांतीय आज आज नैना शर्मा एडवोकेट अध्यक्ष ब्रज जोन महिला कांग्रेस और हर्ष वर्धन बौद्ध एडवोकेट ने

कांग्रेस का प्रदेश महाचिव बनाये पर हर्ष व्यक्त किया गया

प्रत्याशी को पुरी तागत के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा, राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशो का पालन करते हुए पार्टी

मे कांग्रेस पदाधिकारी सक्रियता से जुट जाए। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि बिनीत पारासर बाल्मीकि प्रदेश सचिव बैठक की अध्यक्षता गंगा सहाय लोधी जिला अध्यक्ष एवं संचालन कार्यवाहक जिला

अध्यक्ष टाक्र अनिल सोलंकी ने किया। इस अवसर पर बिनीत पारसर बाल्मीकि प्रदेश महासचिव,गंगा सहाय लोधी जिला अध्यक्ष,ठाकुर अनिल सोलंकी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष,

की बालिकाओं का आशीष समारोह आयोजित किया गया

शामली विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंध नगर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की बालिकाओं का शुभ आशीष समारोह आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान सुमित गुप्ता उप प्रबंधक श्रीमान सुभाष ऐरन व मुख्य अतिथि जैन कन्या डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ अनुपमा एवं डॉ ऋतू जैन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तत्पश्चात दीपावली मेले व घोष की बालिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर

सम्मानित किया गया। आस्था मलिक रेशम शर्मा व भूमि ने कैट वॉक में प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। आस्था मलिक मिस फेयरवेल घोषित की गई। अंशिका नैंसी सैनी नीतिका स्मृति कंगना प्राची काकुल सुमुखी तृप्ति जानवी मिस टैलेंटेड, पलक रीठी अक्षिता डिसिप्लिन गर्ल, स्मृति राजपूत खुशी मलिक कंगना सैनी ने अच्छा मॉनिटर, प्रियांशी शर्मा कनिका ने स्वर कोकिला, ड्रीम गर्ल हिमानी, क्यूट पाई शीतल ,रेशम ,अक्षी इनोसेंट गर्ल ,भूमिका शर्मा प्रीटी गर्ल, सिहरा प्रिटी गर्ल, प्रीटी डॉल वैष्णवी पाल का किताब जीता। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी व प्रबंधक महोदय ने सभी

बालिकाओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि डॉ अनुपमा जी ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया । विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने आए हए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ट आचार्य श्रीमान सजीव कुमार कविता गुप्ता गीता कंबोज अनीता मलिक सुरभि मित्र पंकज बंसल राहुल गिरी रवि कुमार अमित नामदेव कपिल वशिष्ठ मोहित शर्मा विकास कुमार वंदना पुंडीर मोनिका बालियान दिव्या शर्मा आकांक्षा धीमान आदि आचार्य गण उपस्थित रहे। मंच का संचालन श्रीमती नीलम पाल उपासना बंसल व बालिका स्मृति राजपूत ने किया ।

प्रधानमंत्री का लक्ष्य मुख्य धारा में लाने के लिए आतम व्यक्ति तक पहुंचे योजना का लाभ : राजू आये

मत्स्य योजना की जानकारी कर लाभ लें

एटा। राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में स्टार्ट-अप और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी नवाचारों को अपनाने के आह्वान के साथ मत्स्य पालन सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक राकेश कश्यप ने इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से आयोजित

करने में सहायता प्रदान करने तथा सम्मेलन में भाग लेने के लिए मछआरा समदाय और अन्य प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया तथा कार्यक्रम में आए अतिथियों का फूल-मालाएं पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में आयोजित मत्स्य सम्मलेन का उद्घाटन मुख्य अतिथि हिंदूवादी नेता

राज् आर्य, जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह तथा उद्घाटनकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रतनेश कश्यप द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजू आर्य ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बडा मछली उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है तथा प्रधानमंत्री

उसका मत्स्य कृषक लाभ उठाएं इसके तहत मत्स्य कृषकों के लिए बीमा की सुविधा का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इस अवसर पर बंटी कश्यप, शिवराज कश्यप, राजू कश्यप, सतेन्द्र नेताजी, डॉ रवीन यादव, अर्जुन सोलंकी, प्रदीप यादव, बबल् चौधरी, प्रदीप यादव, प्रवेश राजपूत, सुमित प्रधान, प्रवेश प्रधान सहित सैकड़ों की मत्स्य योजना चल रही है संख्या में लोग उपस्थित थे।

'स्वच्छाग्रही प्रेरक महासंघ के द्वारा पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को दिया गया ज्ञापन भोपाल में

क्यूं ना लिखूं सच आलोक मिश्रा

क्या पंचायत मंत्री

स्वच्छताग्रहियों के समस्याओं का कब तक में करेंगे समाधान पूछते हैं 26000 स्वच्छताग्राही लोग आज दिनाँक स्वच्छाग्रही प्रेरक महासंघा मध्यप्रदेश के पदाधिकारीगण स्वच्छाग्रही साथियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में नियमित कार्य निश्चित मानदेय की माँग हेत् भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के समक्ष प्रखरता से माँग रखी एवं ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ प्रदेश के समस्त २९००० स्वच्छाग्रहियों की समस्याओं से अवगत कराया,

माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी जी ने गंभीरता से बातें सुनी एवं अपनी सहमति व्यक्त करते

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शहज़ाद हुसैन रिज़वी, प्रदेश शिक्षाग्रही के परिवार आखिर सचिव श्री मनोज सोनी, प्रदेश मुख्य सलाहकार श्री डॉ आर. के.तिवारी, प्रदेश उप सचिव श्री



करने एवं समस्त स्वच्छाग्रहियों को नियमित कार्य उपलब्ध कराने हेतु कैबिनेट में चर्चा उपरांत निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री श्री

हुए माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा संजय शर्मा जी, नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष श्री राकेश कुमार साहू, श्री चंद्र शेखर पटेल, श्री आनंद पटेल उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आखिर कब तक किया जाएगा निदान या फिर मध्य प्रदेश के

कब तक परेशानियों से जूझते रहेंगे क्या उनके समस्याओं का नहीं हो पाएगा समाधान स्वच्छ भारत को हासिल करने में रही स्वच्छता ग्राहियों की अहम भूमिका पर उनके जीवन यापन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रह्लाद पटेल जी को अपने दिनचर्या एवं परिवार के जीवन यापन के लिए समस्याओं के समाधान के लिए सुनाई गई अपनी समस्या क्या पंचायत मंत्री के द्वारा इन समस्याओं का किया जाएगा समाधान या फिर ऐसे ही हवा में उडता रहेगा स्वच्छाग्राही का

नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया सेल IHRCCO इंडिया श्री मनोज वर्मा (स्वतंत्र) के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर जोरदार स्वागत को तैयारी समाचार मुंबई महाराष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध

नियंत्रण संगठन भारत के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया सेल मनोज वर्मा (स्वतंत्र) के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर जोरदार स्वागत करने की तैयारी। मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी मनोज वर्मा जी (स्वतंत्र) के प्रथम



में भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किए गए है हरिद्वार में मिली सूत्रों के अनुसार 15 फरवरी को रायपुर कार्यालय में कई अहम बैठक में शामिल होकर अपने कार्य को बढ़ाने के निर्देश अपने सदस्यों एवं पदाधिकारियों को देंगे और जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त करने का फैसला ले सकते है और नई कार्यकारणी की घोषणा भी कर सकते है बता दें श्री स्वतंत्र जी छत्तीसगढ़ पत्रकार जनकल्याण समिति एवं प्रथम दस्तक न्यूज चौनल के संस्थापक /अध्यक्ष / एवं चेयरमैन भी है 15,16,एवं 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे श्री स्वतंत्र जी उसके बाद शाम को विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे जहां जितने

भी नवनियुक्त पदाधिकारी है उनको दिल्ली में पद् और दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच गोपनीयता की शपथ लेंगे।इस बीच श्री स्वतंत्र जी कई समाजसेवी , राजनेताओं,और संगठन के पदाधिकारियों से मिलेंगे ,श्री वर्मा जी 22 को मुंबई वापस लौट सकते है, मुंबई में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991

knlslive@gmail.com

उत्पीड़न के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा बैठक कर बनाई रणनीत

रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रेमचंद जायसवाल श्रावस्ती इकौना व्यापार मंडल के अध्यक्ष के निजी आवास पर पंडित श्याम बिहारी मिश्रा गृट उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में अध्यक्ष विनोद कुमार सोनी के नेतृत्व में व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर व्यापारी संगठन के पदाधिकारी लामबंद हुए उक्त बैठक में व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने की



👖 गई / उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार सोनी ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न पूरी तरह से

कस्बा इकौना की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर आक्रोश जताया। विनोद कुमार सोनी ने कहा कि बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातयात सुचारू कराने और जाम मुक्त व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार सोनी, महामंत्री राम प्रताप गुप्ता कोषाध्यक्ष संजेश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश आर्य ,उपाध्यक्ष राहुल सोनी,उपाध्यक्ष इसराइल राइनी ,आजाद राइनी, संरक्षक निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष जितेद्र कुमार गुप्ता , संरक्षक राकेश मिश्रा , संरक्षक माधव राम सोनी संरक्षक नवीन त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक सोनी उपाध्यक्ष राज किशोर गुप्ता सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे।

एण्टी रोमियों टीम द्वारा चलाया गया श्मिशन शक्तिश् एवं शक्ति दीदी अभियान

रिपोर्ट तहसील संवाददाता अरविन्द कुमार यादव श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में जनपद श्रावस्ती के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा अपने—अपने क्षेत्र के स्कूल,कालेजों,गांवों,कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक



स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस—पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं / बालिकाओं को जागरुक किया गया। अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं / हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल—112, हेल्प लाइन—181, वुमेन पावर लाइन—1090, चाइल्ड हेल्प लाइन—1098, सी०एम० हेल्पलाइन—1076, वन स्टॉप सेन्टर—181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन—102, एंबुलेंस सेवा—108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए ऑडियो/वीडियो/पंफलेट के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।अभियान के क्रम में शक्ति मोबाइल टीम, म0आ0 अर्जिता यादव, म0आ0 सुषमा सिंह ने थाना क्षेत्र हरदत्त नगर गिरंट अन्तर्गत ग्राम बरगदहापुरवा, गगनपुरवा व हरदत्त नगर गिरंट कस्बा, महिला आरक्षी सुनीता ने कस्बा भिनगा, आदि स्थानों पर महिलाओं / बालिकाओं को वीमेन पॉवर लाइन 1090 व उनके अधिकार के लिए बनाए गए कानून व नियमों, साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई तथा पंपलेट का वितरण किया ।

बेसिक शिक्षा समिति के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बने सुरेश यादव

रिठौरा। शनिवार को सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल में बेसिक शिक्षा समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। जिसमें दिवंगत प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना को श्रृद्धांजलि दी गई।अध्यक्षता सुरेश यादव ने की श्री सक्सेना के जीवन पर महामंत्री पंकज सक्सेना व अन्य पदाधिकारी ने प्रकाश डालते हुए कहा की श्री सक्सेना के कार्यकाल एवं उनका पूरा जीवन स्कूल संचालकों के हित में कार्य किया ।उन्होंने शासन –प्रशासन के उत्पीडन के खिलाफ कई वार धरना प्रदर्शन किया । स्कूल संचालकों को राहत दिलाई। आज समिति यह



भी कार्य करेगी । तथा समिति का विस्तार करेगी। उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में समिति के सभा सभी पदाधिकारी जी— जान लगाकर कार्य करेगी। इस मौके पर नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई ।जिसमें वरिष्ट उपाध्यक्ष सुरेश यादव को कार्यवाहक अध्यक्ष सर्व सम्मति से बनाया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते हुए श्री यादव ने कहा कि अभी जिन पदों पर जो पदाधिकारी हैं ।वह वैसे ही कार्य करते रहेंगे जल्द ही नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर कदीर अहमद, संजय पॉल, रिंकेश चौरसिया ,अभिषेक द्विवेदी ,विक्रम सक्सेना, प्रज्ञा सक्सेना, के०के० शर्मा, पी०के० गुप्ता आदि मौजूद रहे।

योग का हमारे मानव जीवन में अहम् योगदान- कमांडेंट

रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती रवीन्द्र कुमार राजेश्वरी, कमान्डेंट ६२वीं वाहिनी स.सी. ब., भिनगा के दिशा निर्देशन में एवं महा उपासिका डॉ. बोंगकोट शिथिपोल के नेतृत्व में महामंगलजय, वर्ल्ड पीसफुलनेस फाउंडेशन



(बौद्ध मंदिर) श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में योगाभ्यास एवं मेडिटेशन कराया गया द्य जिसमे वाहिनी के निरीक्षक मान बहादुर गुरुंग के साथ अन्य 20 जवानो ने बौद्ध अनुयायियों के साथ में योगाभ्यास

एवं मेडिटेशन किया द्य इस अवसर पर कमान्डेंट ने बताया कि योग हमारे मानव जीवन में अहम् योगदान रखता है द्य योग करके न सिर्फ शरीर को फिट रखा जा सकता है बल्कि खुद को भी शांत रखा जा सकता है नियमित अभ्यास से शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार होता है योग मानसिक स्पष्टता को बढाता है प्रत्येक व्यक्ति योग के माध्यम से स्वस्थ्य रह कर अपने जीवन को निरोग एवं खुशहाल बना सकता है द्य मैडिटेशन से भी हमारी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार, नींद में सुधार, तनाव कम करने तथा अन्य बहुत से फायदे होते है द्यइस दौरान निरीक्षक मान बहादुर गुरुंग के साथ में मुख्य आरक्षी रवि रंजन, आरक्षी नरेन्द्र सिंह, मुकेश जाटव, अन्य जवान व बौद्ध अनुयायी शामिल रहे।

मध्य प्रदेश के 26000 स्वच्छाग्रही अपनी समस्या को लेकर पहुंचे भोपाल सभी जिले के स्वच्छाग्रही पहुंचे भोपाल क्या समस्याओं का समाधान करेंगे मुख्यमंत्री



क्यूं ना लिखूं सच आलोक मिश्रा

अपना प्रदेश

स्वच्छाग्रही दर–दर की ठोकर है खाने को मजबूर वर्तमान सरकार द्वारा नहीं आखिर कब तक चलता रहेगा स्वच्छाग्रही पहुंचे भोपाल एक

ऐसा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के 26000 स्वच्छाग्रही अपने परिवार के जीवन यापन के लिए दर-दर की खा रहे ठोके वहीं रीवा सीधी सतना दिया जा रहा है कोई ध्यान सिंगरौली एवं सभी जिले के

हफ्ते से कम से मिलने का लगा रहे चक्कर नहीं मिल पा रहे हैं कम क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार स्वच्छ ग्राहियों पर दया की भावना दिखाएगी या फिर ऐसे ही दर-दर की ठोकरे खाते रहेंगे

स्वच्छाग्रही के साथ–साथ उनके 5 लाख परिवार की स्थिति दैनिक होती जा रही है वहीं 26000 स्वच्छ ग्रहण का कहना है कि जिस तरह आप सभी कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान किए हैं उसी तरह मध्य प्रदेश में पदस्थ 26000 स्वछाग्रहियों के जीवन यापन के लिए भी उनके समस्याओं का समाधान करें वहीं कुछ स्वछाग्रहियों के द्वारा एक गाना गया गया की दया के आप हैं सागर मैं हूं एक बूंद छोटा सा अगर इस बूंद को भी उसमें मिला लोगे तो क्या होगा तो दया तो है ही क्योंकि मोहन के अंदर तो दया होती ही है तो क्या यह दया की भावना स्वछाग्रहियों की प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जाहिर करेंगे या फिर नहीं।

राजकीय यूनानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रेमचंद जायसवाल श्रावस्ती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बहराइच श्रावस्ती



श्रीनगर सागर गाँव श्रावस्ती द्वारा कंपोजेट विद्यालय श्रीनगर विकास खांड जमुना जनपद श्रावस्ती एवं चिकित्सालय परिसर में यूनानी

के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे डॉक्टर मोहम्मद इकराम, प्रभारी चिकित्साधिकारी राजकीय यूनानी चिकित्साल्य

11/02/2024 दिन रविवार को रायपुर मोवा क्षेत्र के डोल्फिन प्लाजा परिसर में विरोध प्रदर्शन व इच्छामृत्यु हेतु धरना प्रदर्शन हेतु ज्ञापन

क्यूँ न लिखूँ सच रिपोर्टर रायपुर

रायपुर छत्तीसगढ़ मैं चंन्द्र शेखर शर्मा पुत्र सुशील शर्मा निवासी कबीर नगर रायपुर के साथ छत्तीसगढ़ पुर्व में विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, सर्वेश पाण्डेय, मनोज मिश्रा अन्य अन्तरराजीय गिरोह के लोगों के खिलाफ शिकायत पत्र संबंधित थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु आज

गई पीड़ित ने कहा 30 लाख रूपए और ब्याज का बैंक का कर्जा हैं! यह लोन विजय अनमोल अग्रवाल, सर्वेश पाण्डेय, मनोज मिश्रा आदि लोगों के द्वारा करवाया गया था और इन लोगों ने पार्टनर बनाने के नाम पर जालसाजी कर धोखाधड़ी कर सारा बैंक लोन की रकम हड़प कर लिया है. पीड़ित का कहना है कि बैंक स्टाफ मुझे व मेरे परिवारजन को प्रताड़ित करते हैं और ये

करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं जिसके चलते मैं मानशिक व शारीरिक रूप बहुत दिल्ली, मुख्यमंत्री कार्यालय ज्यादा परेशान हो चुका हूं और रायपुर,छत्तीसगढ़,राज्यपाल पीड़ित का कहना है कि ये कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ गिरोह के लोग धोखाधड़ी की ़,पुलिस महानिदेशक कार्यालय गई रकम को वापिस करने का रायपुर,पुलिस अधीक्षक कार्यालय कई बार मीटिंग कर आश्वासन दे कर मुकर जाते हैं और कहते हैं हम बड़े लोग हैं हमे बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है तुम अपनी खैर चाहते हो तो सहर छोड़ कर चले जाओ, पीड़ित ने सब जगह से थक हार कर न्याय ना मिल पाने के कारण स्पीड पोस्ट के माध्यम से आज करने की आदेश दिया जायं।

रायपुर,जिलाधिकारी कार्यालय रायपुर, संबंधित थाना प्रभारी रायपुर को अपनी शिकायत भेज कर मदद की गुहार लगायी व कहा शासन प्रशासनिक अधिकारि नामजद व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाये या मुझे इच्छामृत्यु हेतु आदेशित

राष्ट्रपति कार्यालय-नई दिल्ली,

प्रधानमंत्री कार्यालय-नई

डभौरा राजस्व की जमीन नापने को तैयार नहीं है आर आई तहसीलदार से आदेश मिलने के बाद भी आर आई पटवारी

क्यों न लिखं सच रिपोर्ट हो पाया है और . राजस्व के से बात की तो उनका कहना रहे हैं हमने उनको नहीं मना रेलवे से लगी राजस्व जमीन की है साथ ही किसानों अखिलेश तिवारी रीवा एमपी जमीन पर रेलवे ने काम लगा था तहसीलदार ने हमें जमीन किया है सीधे तौर पर आप

डभौरा राजस्व की जमीन नापने को तैयार नहीं है आर आई तहसीलदार से आदेश मिलने के बाद भी आर आई पटवारी, हल्का डभौरा, जमीन का सीमांकन करने को तैयार नहीं है मामला रीवा जिला के जवा जनपद अंतर्गत डभौरा नगर परिषद का बताया जा रहा है रीवा जिला के डभौरा नगर परिषद से बडी खबर निकल के सामने आ रही है हां जहा रेलवे से लगी राजस्व भूमि है जिसका सीमांकन कई सालों से करीब 15 से 20 सालों से नहीं हो पाया है इसका सीमांकन कुछ लोगों द्वारा जवा जनपद में आवेदन किया गया था आवेदन करने के बाद करीब 15 से 20 रोज बीत गए आज दिनांक तक मौके का राजस्व रखा है जो की इसी जगह का को नापने के लिए मना किया अंदाजा लगा सकते हैं किस



काम रुकने का स्टे, प्राप्त है उसके बाद भी राजस्व के भूमि पर जबरन काम किया जा रहा है इस संबंध में तहसीलदार एसडीएम पटवारी अनभिज्ञता जाहिर किए हुए हैं इस संबंध में जब मीडिया ने आर आई, राजस्व डभौरा, जितेंद्र दहिया

है मौके पर मीडिया द्वारा तहसीलदार को फोन लगाया गया यह बात जानना चाहा क्या आपने मना किया है राजस्व की जमीन नापने के लिए तो तहसीलदार का कहना था हमने किसी को कुछ नहीं

है की

तरह लाचारी व्यवस्था चल रही आज दिनांक तक सीमांकन नहीं हो पाया है राजस्व भूम का यह पर रहे लोगों की जमीन का राजस्व विभाग के लचर रवैया के कारण वही इस संबंध में तहसीलदार जवा का मना किया है पटवारी झुठ बोल कहना है की बहुत जल्द डभौरा

का सीमांकन कराया जाएगा वहीं राजस्व की जमीन सीमांकन ना

> लग रहा है प्रतिवर्ष इस संबंध में कई बार प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर भी प्रकाशित की गई लेकिन आज दिनांक तक कोई नही निकाला सका है

आता है एक बार इस संबंध में स्थाई निवासियों ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से इस बात के, संबंध में संज्ञान लाकर रीवा जिला के जवा जनपद अंतर्गत राजस्व विभाग के लचर व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग

करना जो पैसा देता है उसी होने के कारण को ताज्जुब देना ऐसे सोच राजस्व को रखने वाले अधिकारियों को लाखों का चुना तत्काल निलंबन की मांग भी की जाती है वही इस संबंध में स्थाई लोगों का कहना है कि अगर समस्या का हाल ना हुआ तो बहुत जल्द इस संबंध में रीवा कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री से मुलाकात करेंगे और न्याय की गृहार लगाएंगे सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली सरकार सभी को साथ लेकर चलने वाली है यह बात सभी अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी भलीभांति से अपने दिमाग में बैठा ले किसानों के साथ बदतमीजी करने वाले अधिकारियों को उनके किए हुए कार्यों का फल जरुर मिलेगा अब मध्य प्रदेश पर तेजस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो

जन सेवा केंद्र संचालकों ने यूपी के 75 जिलों मैं संगठन को दी मजबूती

लवकुश ठाकुर क्यों ना लिखूं सच

अलीगढ़ आज सी एस सी वी एल ई सोसायटी की बैठक पालीमुकीमपुर पर अरविन्द डिजिटल सेवा केंद्र एक महत्व पूर्ण बैठक हुई जिस बैठक को सम्बोधित करते हुऐ सुसायटी अध्यक्ष अतुल उपाध्याय जी ने बताया कि आज के समय मे पुरे भारत मे जनसेवा केंद्र संचालका की संख्या लगभग 12 लाख है जिसमें 處 सहज़ व व्यम व ठरे-तथा अतरिक्त कम्पनी के साथ कार्य कर रहे है आज के समय में महगाई के दौर को देखते हुऐ कोई संचालक परिवार का पालन पोषश नहीं कर पा रहा है सरकार दुवारा चलाई जा रही निम्न योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने

मे जन सेवा केंद्र संचालको की

मे जाति, मूल, आय आदि प्रमाण पत्र बनाने में सरकार द्वारा 13 रूपरे कमीशन है जिसमे जनसेवा केंद्र संचालक 4 फोटो स्टेट तथा इंटरनेट तथा लाइट का खर्चा, तथा कंपनी द्वारा प्रति दिन का चार्ज लगाकर अन्य कार्य व खर्चा लगाकर जनसेवा केंद्र संचालक कार्य करने में दुःखी है जब कोरोना का समय था तब सब घर मे रहते थे तब जनसेवा केंद्र संचालक घर घर जाकर लोगों को सरकार की महत्व पूर्ण योजना आयुषमान भारत का कार्ड बनाकर लोगों को इलाज दिलवाया करते थे जिसके बदले मे सरकार 7 रूपये लगभग दिया करती थी जब इतना खर्चा संचालकॉ के दुवारा अपना हुऐ कोरोना समय मे लोगों को घर घर जाकर पैसे निकाले जिसके बदले में सरकार 5-7 रूपये 5000 पर देती हैलेकिन सरकार का जब बजट सत्र आया तो सरकार ने जनसेवा केंद्र संचालक को तरफ ध्यान तक नहीं दिया तथा हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलो मे संगठन को धार दे चुके है इसी क्रम मे अलीगढ जनपद के जिला अध्यक्ष सतेंद्र जी ने बताया कि सरकार के डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने मे जनसेवा केंद्र संचालक ने पूरा साथ दिया लेकिन सरकार का धयान हमारी तरफ बिलकुल नहीं है अखिलेश शर्मा जी ने बताया कि भारत में डिजिटल भारत बनाने के लिये 1 लाख से ज्यादा गावों मे इंटरनेट वारी है हम सब की तैयारी है

अहम् भूमिका है आज के समय जीवन के साथ खिलवाड़ करते पहुंचाने का कार्य किया तथा अरविन्द जी दुवारा बताया गया कि हम सरकार के प्रधानमंत्री मन की बात का लाइव भी समय समय पर करते रहे है लेकिन सरकार ने हमारी तरफ कोइ ध्यान नहीं दिया लेकिन सबसे ज्यादा अपने को दुखित महसूस करते है आज किसी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है अब आगे आने वाले समय मे हम सब संगठित होकर अपने अधिकार की लड़ाई स्वयम लड़गेवहां कदीर खान जी, सोनू यादव , गगन राजपूत, गिरीश सूर्या, राकेश शर्मा जी , अमित चौधरी, अभी प्रताप सिंह तथा जन सेवा केंद्र संचालक उपस्थित रहे अब संघर्ष की वारी है हम सब की तैयारी हैअब संघर्ष की

भारतीय कवि सम्मेलन का होगा आयोजन

लवकुश ठाकुर क्यों ना लिखूं सच

अलीगढ़ शब्द –शब्द दर्पण साहित्यिक समूह के तत्वाधान में संस्थापक मानव सिंह राणा श्सुओमश के आयोजन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन शर्मा पत्रकार के संयोजन व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुँ प्रवल प्रताप जी के निर्देशन में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन रविवार दिनाँक 11 फ़्रवरी को होना तय हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री सरला शर्मा (लखनऊ) सुनहरी लाल श्तुरन्तश (दिल्ली), सबरस मुरसानी (मुरसान)

सतीश मधुप संचालक (मैनपुरी), वन्दना विशेष (लखनऊ) राजकुमार भरत (एटा), संजीव सरगम (एटा) शिवम अश्क (सोरों) आतिश सोलंकी महेश यादव संघषी आचार्य मूलचंद शर्मा श्निर्मलश् (मथुरा) रवेन्द्र पाल सिंह श्रसिकश (मथुरा), प्रदीप चौहान, अमिताभ शर्मा व बाल कवयित्री वर्तिका तोमर आदि काव्य पाठ करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय सहयोग गौरव सिंह राठौर कर रहें हैं।

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र

मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा १ लाख का इनामी बदमाश, ८ साल पहले जेल से हुआ था फरार



आजमगढ़। जिला जेल से वर्ष यूपी एसटीएफ टीम के साथ हुई 2016 में फरार हुआ एक लाख का मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके इनामी बदमाश शुक्रवार की देर रात दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज

सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लिपिक घूम आया अमेरिका, बिना अनुमित के शस्त्र लाइसेंस भी बनवाया

चंदौली। प्रमोद मिश्रा की तैनाती वर्तमान में संयुक्त जिला चिकित्सालय चिकया में है। बगैर शासन से अनुमित लिए उसने सीएमओ का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अमेरिका का दौरा कर लिया। चंदौली जिले के स्वास्थ्य विभाग में तैनात लिपिक प्रमोद मिश्रा का मामला विधानसभा में उठा है। कुशीनगर के विधायक डॉ. असीम कुमार ने लिपिक पर आरोप लगाया है कि वह सीएमओ का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर न सिर्फ अमेरिका घूम आया, बल्कि बगैर अनुमति के शस्त्र का लाइसेंस भी बनवा लिया है। भाजपा विधायक डॉ. असीम कुमार ने विधानसभा में प्रश्न के दौरान बताया कि प्रमोद मिश्रा की तैनाती वर्तमान में संयुक्त जिला चिकित्सालय चिकया में है। बगैर शासन से अनुमित लिए उसने सीएमओ का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अमेरिका का दौरा कर लिया। साथ ही, अपने नाम से शस्त्र लाइसेंस भी जारी करवा लिया है, जो कर्मचारी नियमावली के विरुद्ध है। उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर आरोपी पर कडी कार्रवाई की मांग की है। मामला वर्ष 2022 के पहले का है। इससे पहले लिपिक प्रमोद मिश्रा भदोही में तैनात था। यहां के सीएमएस या सीएमओ से मामले का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल प्रमोद अक्तूबर 2022 से चिकया तैनात है। - डॉ. अजय कुमार गौतम, सीएमएम, संयुक्त चिकित्सालय, चिकया। सीएमओ के हस्ताक्षर से यदि आरोपी ने कोई फजीर्वाड़ा किया है तो इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

बोलेरो की टक्कर से दो बाइक सवार घायल

चित्रकूट। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दो युवक और सड़क पर कुत्ते से टकराने पर बाइक सवार ससुर दामाद घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली दुर्घटना मऊ सीएचसी के समीप शुक्रवार सुबह करीब दस बजे हुई। कोतवाली कर्वी के खरौंध गांव निवासी भारत व बरियारी गांव निवासी रामदुलारे बाइक से कर्वी की ओर आ रहे थे। तभी सामने से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार दोनो घायल हो गए। जिन्हे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा हादसा मुख्यालय के कलक्ट्रेट के आगे हुआ। बताया कि फतेहपुर जिले के धाता के छेदीलाल (65) अपने दामाद पुरुषोत्तम सोनी (35) निवासी अढ़ौली बाइक से चित्रकूट अमावस्या मेला जा रहे थे। अचानक सामने कुत्ता आने से बाइक उससे टकरा गई। इससे दोनों गिरकर घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बाइक चालक ने हेलमेट पहना था।

भाजपाइयों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका

चित्रकूट। प्रधानमंत्री के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताआ ने शहर के धनुष चौराहे पर प्रदर्शन किया। झांसी मिजार्पुर राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत शहर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष लवलेश निषाद ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। जिससे बर्दास्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा, जिला महामंत्री अखिलेश रैकवार भाजापा नेता भागवत त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष रवि गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष अंकित पांडेय, नगर महामंत्री दीपक द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

मकान से नकदी, काली मंदिर से सोने की आंख और घंटा चुराया

गाजीपुर। जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जंगीपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 गांधीनगर स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए 15 हजार नगदी और लाखों रुपये के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पचोखर गांव स्थित मां काली मंदिर से पीतल का घंटा और आभूषण उड़ाया दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मुकदमा दर्जकर छानबीन करने में जुट गई। जंगीपुरः थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 गांधीनगर निवासी आशीष कुमार जायसवाल बीते सात फरवरी को वाराणसी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। दूसरे दिन बीते आठ फरवरी की रात जब घर पहुंचे तो मकान के अंदर के कमरों का ताला टूटा था। चोरों ने 15 हजार नगदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया था। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्जकर मामले की छानबीन की जा रही है। दिलदारनगरः थाना क्षेत्र के पचोखर गांव स्थित मां काली मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 35 हजार रुपये का पीतल का पांच घंटा और मूर्ति में लगे सोने की आंख और छोटी मूर्ति में लगे चांदी की आंख पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष पवन उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्जकर छानबीन चल रही है। पुलिस ने दो चोर किया गिरफ्तार, सरिया बरामद सादात। थाना क्षेत्र के प्यारेपुर चौराहा से पुलिस ने शुक्रवार को दो चोरों को धर- दबोचा। पुछताछ के बाद चालान कर दिया। निशादेही पर बड़ागांव स्थित जल निगम गोदाम से चोरी गई चार बण्डल सरिया बरामद की गई। पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया। अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों के खिलाफ धर-पकड़ को लेकर पुलिस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। प्यारेपुर चौराहा से पुलिस ने चोर राधेश्याम राजभर और किशन राजभर निवासी बड़ागांव को गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने बीते आठ फरवरी को बड़ागांव स्थित जल निगम से सरिया पर हाथ साफ कर दिया था। थानाध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने बताया कि दोनों चोरों से पूछताछ के

बाद चालान कर दिया गया।

थाना क्षेत्र अंतर्गत भदुली बाईपास पर मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ की टीम ने एक लाख के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया। मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। बदमाश वर्ष 2016 में जेल से फरार हुआ था।

के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से तमंचा व कारतूस एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यूपी एसटीएफ की टीम जिले में फरार चल रहे अपरिधयों की तलाश में जटी थी। एसटीएफ के उपनिरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मौजूद टीम को शुक्रवार की रात सूचना मिली कि 2016 में आजमगढ़ जेल से अपने दो अन्य साथियों के साथ फरार शातिर अपराधी जितेंद्र मुसहर सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली बाईपास मार्ग से पैदल ही गुजरने वाला है। सूचना पर सिधारी पुलिस

टीम भदुली बाईपास के पास अपराधी के आने का इंतजार करने लगी। रात लगभग दो बजे दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखायी दिए। जिसे पुलिस टीम ने रूकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग किया। इस दौरान एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वह लहुलुहान होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी

के रूप में की गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र पर आधा दर्जन जघन्य अपराधों के मुकदमें आजमगढ़ के साथ ही जौनपुर व बलिया जिले में दर्ज है। एडीजी जोन वाराणसी ने जितेंद्र पर एक लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। 2016 में यह जेल की चाहरदीवारी फांद कर फरार हो गया था। तब से वह फरार) चल रहा था। उसके फरार हुए साथी का नाम

को साथ लेकर यूपी एसटीएफ की मौके से फरार हो गया। घायल चंद्रशेखर मुसहर बताया जा रहा है। शादी का वादा कर यौन शोषण करने वाले अधिकारी की याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा- आरोपी ने किया पद का दुरुपयोग



प्रयागराज। गाजियाबाद में याची अंशुल कुमार एक मामले की विवेचना के दौरान पीडिता शिवानी के संपर्क में आए। महिला ने आरोप लगाया कि अंशुल ने नशीला कोल्ड डिंक पिलाकर उसके साथ संबंध बनाया। पहले से शादीशुदा होने के बाद भी अंशुल महिला को शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाता

महिला से यौन शोषण करने के आरोपी पुलिस अधिकारी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दी है। आरोपी पुलिस अधिकारी ने मुकदमें को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। याची के अधिवक्ता गुलाब चंद्रा, रुपेश कुमार सिंह व शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार त्यागी ने पक्ष रखा। गाजियाबाद में याची अंशुल कुमार

एक मामले की विवेचना के दौरान पीड़िता शिवानी के संपर्क में आए। महिला ने आरोप लगाया कि अंशुल ने नशीला कोल्ड डिंक पिलाकर उसके साथ संबंध बनाया। पहले से शादीशुदा होने के बाद भी अंशुल महिला को शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाता रहा। बाद में शादी से इन्कार करने पर महिला ने धारा 376, 377 सहित अन्य धाराओं में थाना मधुवन बापूधाम,गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कराया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला लंबित है। याची ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शंभू खरवार (सुप्रा)

मामले का संज्ञान लिया। इसके अनुसार एक बार यह स्थापित हो जाए कि शादी का वादा, जिसकी आड में आरोपी ने पीडिता के साथ संबंध बनाया था, शुरू से ही झुठा था और ऐसे वादे पर यदि आरोपी ने उसे प्रेरित करते हुए यदि पीडिता से यौन संबंध बनाया है तो उसे बलात्कार का अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने नशीला कोल्ड ड्विंक पिलाकर बेहोशी की हालत में संबंध बनाने के मामले का संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा, पीड़ितों की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन मौजूदा मामले में लगाए गए आरोपों के अनुसार प्रतीत होता है कि याची ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला का यौन शोषण किया है। इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई उपयुक्त आधार नहीं है, ऐसे

विदाई समारोह के लिए स्कूल जा रही थी छात्रा, पिकअप की टक्कर से मौत

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शनिवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। 12वीं की छात्रा अपने स्कूल में विदाई समारोह में शामिल होने के लिए साइकिल से जा रही थी। इस दौरान पिकअप की टक्कर से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद भाग रहे चालक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रामपुर थाना क्षेत्र के निधयाव गांव के पास शनिवार की सुबह बेकाबू पिकअप ने सामने से आ रही साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पांच किमी तक पीछा कर रामपुर पुलिस ने उसे वाहन सहित पकड़ लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि घटना के बाद मृतका की साइकिल पिकएप के अगले हिस्से में इंटर कॉलेज में कक्षा बारहवीं की



फंसकर पांच किमी तक घसीटती गई थी। छात्राअपने कॉलेज में आयोजित विदाई समारोह में शामिल होने जा रही थी। मृतका की शिनाख्त बलिया जिले के उंभाव थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी नंदनी (16) पुत्री चितरंजन के रूप में हुई। वह रामपुर थाना क्षेत्र के निधियावं स्थित एक

छात्रा थी। शनिवार को उसके स्कल में बारहवीं की छात्र-छात्राओं का विदाई समारोह था। जिसमें नंदनी शामिल होने के लिए साइकिल से जा रही थी। अभी वह निधियांव गांव के पास पहुंची थी कि रामपुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मधुबन की तरफ से आ रही पिकअप ने साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर

पिकअप के जद में आ गई। टक्कर के बाद पिकअप चालक ने भागने की कोशिश में रफ्तार और बढ़ा दी। जिससे छात्रा की साइकिल पिकअप के अगले हिस्से में फंस गई। उधर, किशोरी को जब तक स्थानीय लोग अस्पताल ले जा पाते तब तक किशोरी ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद रामपुर एसओ जगदीश विश्वकर्मा पलिस बल के साथ भाग रहे पिकअप का पीछा किया, जहां करीब पांच किमी दुर पहुंचकर बलिया जिले के बेल्थरारोड स्टेशन के रेलवे फाटक के पास से पकड लिया। वहीं शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ घटना के संबंध में मतका के पिता की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की

लगते ही नंदनी साइकिल से गिरकर

फ्लेक्स तो है 19 साल की उम्र में मौतः खुदकुशी से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट, लाइव होकर 11वीं मंजिल से कूदा

वाराणसी। वरुणा गार्डेन अपार्टमेंट में एक युवक ने अपने जन्मदिन के दिन ही 11वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक खुदकुशी करते समय इंस्टाग्राम पर लाइव था। अपने जन्मदिन के दिन सेंट्रल जेल रोड स्थित 11 मंजिला वरुणा गार्डेन अपार्टमेंट की छत से छलांग लगा कर युवक के आत्महत्या की घटना ने परिवार के साथ ही दोस्तों को भी झकझोर दिया है। 12वीं की पढ़ाई के बाद रणवीर मुंबई में फिटनेस ट्रेनिंग की पढ़ाई कर रहा था। रणवीर को मॉडलिंग का भी शौक था। मौजुदा समय में रणवीर अपने घर पर ही रह रहा था। युवक के दोस्तों से पता लगा है कि आत्महत्या के समय



तो है 19 साल की उम्र में मौत रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुरुवार की रात अंग्रेजी में स्टेटस लिखा था कि फ्लेक्स तो है 19 साल की उम्र में मौत...। इंस्टाग्राम पर उसने अपने दोस्तों की जन्मदिन की शुभकामनाओं का

जवाब भी दिया था। रणवीर के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की दोपहर आत्महत्या से पहले वह लाइव हुआ था तो सभी की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहा था। उसी बीच उसे अचानक न जाने क्या हुआ कि उसने जान दे दी। दोस्त रहे नहीं... अब जिंदगी में बचा क्या है पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रणवीर के दो दोस्त भी आत्महत्या कर चुके हैं। वह अकसर कहता था कि दोस्त रहे नहीं... अब जिंदगी में बचा क्या है...? इस पर उसके परिजन उसे समझाते थे। रणवीर और उसके पिता के बीच की आपसी समझ बहुत अच्छी थी और एक-दूसरे के प्रति व्यवहार दोस्ताना था। रणवीर को उसके पिता हमेशा कहते थे कि जो मन आए

करो, लेकिन अच्छे आदमी बनो। ये है मामला भेलुपुर थाना क्षेत्र की गुरुधाम कॉलोनी के मूल निवासी गणेश उपाध्याय के व्यावसायिक भवन हैं। वह अपने इकलौते बेटे रणवीर उपाध्याय (19) और पत्नी सीमा उपाध्याय के साथ वरुणा गार्डेन अपार्टमेंट में रहते हैं। 12वीं की पढ़ाई के बाद रणवीर मुंबई में फिटनेस ट्रेनिंग की पढ़ाई कर रहा था। रणवीर को मॉडलिंग का भी शौक था। मौजूदा समय में रणवीर अपने घर पर ही रह रहा था। शुक्रवार की अपराह्न तीन बजे रणवीर अपना मोबाइल लेकर अपार्टमेंट के ए-ब्लॉक की छत पर गया और टहलते हुए अचानक जमीन पर छलांग लगा दी। रणवीर की मौके पर ही मौत

काशी में धुंध खत्म होते ही बाबतपुर एयरपोर्ट पर डेढ़ गुना बढ़ी विमानों की संख्या, यात्रियों को राहत

वाराणसी। कोहरे और ठंड का असर कम होने के बाद विमानों की संख्या बढ़ गई। हालांकि जनवरी में धुंध के कारण विमानों की संख्या काफी कम हो गई थी। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अब विमानों के साथ ही यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है कोहरा खत्म होने और मौसम साफ होने की वजह से हवाई यात्रियों की परेशानियां भी खत्म हो गई हैं। विमानों और यात्रियों की संख्या भी बाबतपुर एयरपोर्ट पर अब बढ़ने लगी है। पिछले माह जनवरी में जहां 15 से 18 विमान औसतन उतरते थे, वहीं अब 27 से 28 विमान पहुंचने लगे हैं। फरवरी माह में इनकी संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। इसमें शारजाह, काठमांडो के भी विमान शामिल हैं।

संक्षिप्त खबरें

महिला के पेट से पांच किलो का ट्यूमर निकाला

मिजापुर। मंडलीय अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन कर चेकित्सकों ने पेट से पांच किलो का ट्यूमर निकाला। कैंसर सर्जन ने टीम के साथ सफल ऑपरेशन किया। एसआईसी डा. तरुण सिंह न बताया कि 40 वर्षीय महिला का पेट लगातार बढ़ता जा रहा था। कई जगह से इलाज करने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। पीड़िता ने सोमवार को मंडलीय चिकित्सालय में कैंसर विशेषज्ञ डॉ.राजेश कुमा को दिखाया। जांच देखने के बाद ऑपरेशन की तैयारी की गई। जनरल एनेस्थीसिया में डॉ. चंदन, डॉ. विशाल की टीम ने मरीज को बेहोश किया। डॉ. राजेश, डॉ. प्रतिभा ने आपरेशन कर पांच किलो का ट्यूमर निकाला गया, जो ओवरी से निकल रहा था। प्राचार्य डा. आरर्ब कमल ने बताया कि इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि महिल की बच्चेदानी और एक तरफ की ओवरी बरकरार है। इससे उसके

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दो घायल

मिजार्पुर। थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित वन विभाग कार्यालय के पास शुक्रवार की शाम सामने से पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी इससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डाक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया क्षेत्र के देवरी गांव निवासी मनीष पाल (23) पिता रमाशंकर पाल अपने साथी प्रिंस यादव (22) पुत्र रामनरेश यादव और धीरेंद्र पाल (18) पुत्र मखौली पाल के साथ शुक्रवार की शाम को बाइक से किसी काम से निकले थे। तहसील के पास पेट्रोल लेकर बाइक सवार घर जा रहे थे कि वन विभाग के पास सामने सोनभद्र की ओर से अ रही पिकअप ने टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार तीनों सार्थ गंभीर रुप से घायल हो गये। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। जहां डाक्टर ने मनीष पाल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रुप से घायल प्रिंस और धीरेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने सूचना परिजनों को दी। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। मड़िहान थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दो घायल है जिनको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

प्रतिबंधित मास बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

गाजीपुर। शहर कोतवाली के निगाही बेग मुहल्ले में दिबश देकर पुलिस ने बृहस्पतिवार को करीब 23.5 किलो प्रतिबंधित मांस, एक लोहे की बांकी, दो चाकू और एक कुल्हाड़ी बरामद किया। साथ ही चार आरोपियों को धर- दबोचा। पूछताछ के बाद शुक्रवार को चालान कर दिया। अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस कोतवाल दीनदयाल पांडेय के नेतृत्व मे भ्रमण कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर निगाही बेग मुहल्ला मे दिबश देकर प्रतिबंधित मांस के साथ आरोपी शीबा परवीन, सहनाज बानो, नजमा खातून और संजीदा परवीन को धर- दबोचा। प्रतिबंधित मांस के अलावा एक बांकी, दो चाकू, एक कुल्हाड़ी, एक प्रतिबंधित मांस काटने की लकड़ी का गुटका बरामद किया गया। इस संबंध मे कोतवाल दीनदयाल पांडेय ने बताया कि प्रतिबंधित मांस के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद चालान कर

मारपीट में चार को पांच वर्ष की कैद

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत गभार मारपाट के मामल में बृहस्पातवार का शाम सदपुर कार्तवाला व महिचा गांव के रामनवल, चन्द्रदेव यादव, बलिराम यादव, रामजनम यादव को पांच- पांच साल की कारावास और 15 -15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार महिचा गांव के पारस नाथ सिंह ने पुलिस को तहरीर दिया कि उसके गांव में यादव लोगों के पशु छुट्टा घुमते हैं और फसलों को बराबर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी शिकायत यादव परिवार के लोगों से की गई तो वह नाराज हो गए और कहे कि पश् छुट्टा ही रहेंगे। इस बात को लेकर बीते 20 मार्च 2008 की रात जब वह अपने परिवार के लोगो के साथ दरवाजे पर बैठे थे। तभी रामनवल यादव, चंद्रदेव यादव, बलिराम यादव और रामजनम यादव गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। इससे काफी चोटें आई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कल नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तो को जेल भेज दिया।

हर घर नल से नहीं जुड़ पाए 350 गांव

मिजापुर। 22 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की जल जीवन मिशन योजना से अभी भी 350 से ज्यादा गांव जुड़ नहीं पाए हैं। इस योजना को शुरू हुए तीन साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इन गांवों में कहीं पाइप लाइन में सीपेज तो कहीं कनेक्शन के अभाव में हर घर नल से जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई गांवों में तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ वहीं, जल निगम का दावा है कि 1487 गांवों में पानी पहुंचने लगा है। 22 नवंबर 2020 में हर घर नल योजना का काम शुरू हुआ था। जिले के 743 ग्राम सभाओं के मजरों समेत 1839 गांवों में हर घर नल से जल देने के लिए दो साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जमीन के चिह्नांकन, मृदा परीक्षण सहित अन्य प्रक्रिया में देरी के चलते योजना की मियाद बढ़ती गई। तीन साल बीतने के बाद काम अधूरा है। मड़िहान, मिर्जापुर-सोनभद्र सीमा के गढ़वा गांव के हरदी कला मजरे के लोगों को पानी के कनेक्शन का इंतजार है। मजरे में लगभग दो सौ घर हैं। ग्रामीणों को नदी, नालों के पानी से प्यास बुझानी पड़ती है। कलवारी, मड़िहान रोड पर जगह-जगह कनेक्शन पाइप लाइन ध्वस्त हो कई है तो धुरकर में कई स्थानों पर कनेक्शन ही नहीं हुआ है। इसी तरह जिगना, छानबे क्षेत्र के किसी गांव मे अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया है। जमीन के नीचे बिछाई गई पाइप लाइन में लीकेज है। हरगढ़, भौरुपुर अजगना, गोगांव, चेहरा, बघेडाखुर्द, आदमपुर, रैपुरी में भी यही हालत है। कछवां के 40 गांवों के घरों में कनेक्शन नहीं दिए गए। कुछ गांवों में अभी तक पानी की टंकी का भी निर्माण नहीं हो पाया है। हलिया ब्लॉक के कई गांवों कनेक्शन नहीं दिया गया है। कुछ जगहों पर टोटी तो लगा लगा दी गई है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है वेलाही, नदना, परसिया, पटपरा, सोनगढ़ा, पवरी खुर्द, बढ़वार, पवारी खुर्द आदि गांवों में भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है।

YOU WILL BE SURPRISED TO KNOW THAT IF PASTA IS CONSUMED PROPERLY, IT CAN HELP IN REDUCING WEIGHT. TO-DAY WE ARE **GOING TO** TELL YOU SOME TIPS TO MAKE HEALTHY PASTA, WHICH WILL MAKE YOUR WEIGHT LOSS

Losing extra weight is a very difficult and tiring task. For this people have to follow special diet. Usually people stick to home cooked food during their weight loss journey. But after a point home cooked food starts getting boring and people have no other option but to eat it. If you are also bored of your daily food and are

JOURNEY

Keep these things in mind while making pasta, the taste will reduce weight easily



loss journey looking for some healthy and tasty delicious."Choose option, then you the right pasta- If can include pasta you are consuming pasta to be healthy in your diet. Yes, you read it right, and lose weight, eating pasta leads then it is important to weight gain. But to choose the right you will be surpasta. Usually prised to know that people make and if pasta is coneat pasta made of sumed properly, it white flour, due to can help in reducwhich their weight ing weight. Today increases. Instead we are going to tell of pasta made of you some tips to white flour, choose make healthy pasta made of pasta, which will millet, jowar and make your weight ragi. Pasta made

from whole grains is rich in many essential nutrients besides being delicious to eat.""Use vegetables- If you are thinking of putting on weight, then consuming only pasta can cost you dearly. That's why you use vegetables in pasta. This will increase the taste and nutrient content of the pasta and will not increase your

weight. You can add vegetables like corn, broccoli, zucchini, bell peppers, onions, olives and jalapenos to pasta.""It is important to use the right oil- Olive oil is considered the best to use for making pasta. Olive oil prevents pasta from sticking to the gut. If you do not have olive oil, you can use mustard oil.

SUMMER NAIL CARE TIPS

Summer season takes away the shine of nails, take care of them like this

increases. In such a situ-

ation, if the nails are

taken care of daily, then

the risk of infection can

be reduced. That's why

people should clean

their nails properly in

the summer season.

Today we are going to

tell some tips, which

will be very useful for

you while taking care of

your nails."Keep your

nails clean- Because of

your nails, you can fall

ill in the summer sea-

son, so always try to

keep them clean. To

keep the nails clean,

THE BEAUTY OF THE HANDS COMES FROM THE SHINY NAILS, WHICH GET SNATCHED AWAY IN THE SUMMER SEASON THAT'S WHY PEOPLE SHOULD TAKE CARE OF NAILS IN THE SUMMER SEASON TODAY, IN THIS ARTICLE, WE ARE GOING TO TELL PEOPLE THE TIPS TO TAKE CARE OF NAILS IN THIS SEASON.

The beauty of the hands comes from the shiny nails, which get snatched away in the summer season. Along with taking care of face, hands and feet in summer, it is also necessary to take care of nails. Nail care is not just limited to beautifying the hands. Actually, hands sweat during the summer season, due to you can wash them



with water. Just washing with water cleans the dirt of hands and nails to a great extent. You can also use soap if you want.""Apply top coat on the nails- In the summer season, our nails are more exposed to sunlight and water, due to which they become weak and break. Always keep a top coat on your nails to prevent them from getting weak. Top coat protects nails from sun and water. Apart from this, it also protects the nails from the damage caused by the chemicals present in the swimming pool.

This small carelessness of If you see these signs on your body yours can be dangerous during dinner, know about it



There are many such habits in our lifestyle that make us suffer from diabetes. If you also want to avoid diabetes, then leave these habits from your lifestyle immediately. You should know that what are the mistakes you do, which increase the level of blood sugar. Today we will tell you about the same mistakes, due to which the problem of diabetes can arise."eating curd everyday"Curd is considered an important part of our healthy diet. The nutrients present in it benefit the body in many ways. But Ayurveda says that by consuming curd daily, you will gain weight and may face problems like poor metabolism. Which causes the risk of diabetes."overeating at night"Dinner should always be light and nutritious so that it can be easily digested. But some people eat heavy food at night. Which affects their liver. Due to which their metabolism slows down and the risk of many diseases

increases."overeating"Ayurveda experts say that if you are hungry for two rotis, then eat only one roti. Because eating more can cause you many diseases. Eating more food than your appetite can make you a victim of cholesterol, digestive problems and obesity."not hungry, still eating"Food should be eaten only when you feel hungry.



Reasons You May Feel Like Physical illness Something Is Wrong With You



Loneliness

Mental health struggles

Overwhelmed

Blood clotie blood clotting is sometimes considered good. This is because if you get hurt somewhere, clots prevent excess blood from coming out of the body. Although blood clots are sometimes dangerous too. Because due to the

problem of blood clotting in the blood vessels, the organs do not get enough blood. Due to which serious problems can arise in the body. That's why today we will tell you how your life can be lost due to the formation of blood clot in some parts of the body. So let's know about him."lungs"The heartbeat becomes faster due to the formation of a blood clot in the lungs. Blood in cough, difficulty in breathing starts. If you feel something like this, go to your doctor im-

mediately. Because your slight negligence can increase the disease further. "Heart" When a blood clot forms in the heart, you may experience symptoms similarto a clot in the lungs. But if you have had a heart attack, you may also feel nausea and vomiting along with pain."Brain"The formation of a blood clot can cause a serious blockage in

chest the brain. In fact, without oxygen from the blood, your brain cells begin to die within minutes. A clot in

your brain can cause pain on one side of the head, confusion, seizures, trouble speaking, and weakness." Abdomen"The formation of a clot in the veins of the stomach and esophagus can lead to cuts, which can lead to bleeding.

An easygoing affair with no soul

I is the future and co-directors Amit Joshi and Aradhana Sah bring forth a tale of an impossible love story of a man and a female robot, who is fondly known as Sifra with *Teri Baaton Mein* Aisa Uljha Jiya. But, where does it go wrong? Lack of humour in the first half and a plot line that ends up going nowhere but to a stereotypical climax that too of a love triangle.

The makers, who have always believed in creating stories with social messaging, back a visionary and futuristic story this time that might stand out in the clutter but it just refus-

es to be a compulsory watch. Sifra (Kriti Sanon), a human-like-female robot flies off to meet a robotic engineer Aaryan aka Aaru (Shahid Kapoor) to Delhi. Aaryan falls in love with Sifra but his aunt Dimple Kapadia doesn't approve of it at all, who generated her for human trials. Will Aaru get his lady love Sifra in

The first half is too exhausting. It only has humour in parts and a funny take on an unpopular subject that might look interesting

in lot of ways than expected. The interval point is predictable but second half is gullible enough. The highlight of the film is the concluding twenty minutes - Kriti's tribute to Madhuri Dixit Nene with Dhak Dhak Karne Laga is probably the only moment that

compels to laugh out loud amidst chaos and the core conflict. Although, Joshi and Sah's attempt

to make a love story like this is genuinely commendable but there's absolutely nothing much to look out for except for a couple of scenes that may lift your mood organically. The first half demands a tad bit trimming to suit the atmosphere of the film in totality.

With the runtime of 143 minutes, TBMAUJ is a one time watch. The beauty of the film is its ensemble cast — Dharmendra, Rakesh Bedi, Dimple Kapadia etc. but the makers had always done a fabulous job with their secondary and tertiary casting, be it in *Hindi Medium* or *Luka Chhupi* in the past.

Jahnvi Kapoor's cameo is refreshing and is a good sign of hinting at the sequel. Also, Sifra's

Title: Teri Baaton Mein

Aisa Uljha Jiya

Directors: Amit Joshi and

Aradhana Sah

Cast: Shahid Kapoor, Kriti

Sanon, Dimple Kapadia,

Dharmendra, Rakesh Bedi

and others

Where: In theatres near you

Rating: ★★』

rekindled love for Aaru despite being re launched is equally intriguing. *TBMAUJ* is strictly an easygoing affair with no soul. The album that comprises of three groovy numbers — title track, Laal Peeli Akhiyaan, Akhiyan Gulab are quite the saviour to the not-so-engaging ride.

Shahid is a great match for a film like this and so does his performance, Kriti manages to impress especially in the second half since she has a bigger playground than the rest courtesy producer Dinesh Viian. The rest of the cast including Ashish Verma are bang on.

TBMAUJ is a coming of age rom-com that is flawed upto large extent but somehow bounds



Zac Efron shines in a familiar and relatable tale

restling forms, the backdrop of this sports film, which occasionally borrows tropes from this wellworn genre. Here, instead of a competitive, straightforward sports film, the narrative is more of a drama about brotherhood, the weight of irrational expectations, and the noxious influence of an autocratic father.

Set during the late 1970s and early '80s in Texas, the film is a tough, heart-breaking story loosely based on the life of the American wrestling dynasty - The Von Erichs Parents Fritz aka Jack and Dorris (Holt Mc-Callany & Maura Tierney), and their five sons; Jake, Kevin (Zac Efron), Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson), and Mike (Stanley Simmons). It tells us what happens when the myth of "being great" runs into the reali-

and white frames circa the 1960s with Jack in the wrestling ring aggressively displaying his signature move. the Iron Claw, a vice grip that he applies to demolish his opponent, leaving him in a pulpy mess. A few moments later, in the parking lot, he as-

sures his wife that


ty of a dysfunctional family.

The film begins with black

renting a new Cadillac despite being tight on funds is necessary for his stardom. This only shows us the type of person he is.

Thereafter, the tragicomic melodrama unravels from Kevin. Fritz's oldest surviving son's point of view. At the very onset, he tells us, "Ever

since I was a child, people said my family was cursed. We never talked about it. We brothers never believed it, but bad things kept happening. Mum tried to protect us



the brother's relationships with one another, the warm and sweet intimacy, Cast: Zac Efron, Jeremy Allen their father's abusive White, Harris Dickinson, Stanley treatment, and their cy-Simons, Maura Tierney, Holt cles of trauma. It also McCallany, Lily James, Kevin Anton touches upon themes of Where: In theatres near you toxic masculinity, American enterprise, and exploitation.

What makes the film shine is the well-etched characters. Unfortunately none of them, except for Kevin and, to some extent, Kerry, have clear arcs and tidy endings.

Title: The Iron Claw

Director: Sean Durkin

Rating: ★★★

Title: Monster

Director: Hirokazu Koreeda

Cast: Sakura Ando, Eita Nagayama,

Soya Kurokawa, Mitsuki Takahata,

Akihiro Kakuta, Shido Nakamura,

Yuko Tanaka, Hinata Hiiragi

Where: In theatres near you

Rating: ★★★★

On the performance front, no one gets more noticed than Zac Efron. He has bulked his physique to suit his role, and-he shines as the man who takes the onus of being the oldest despite grappling with his

inner demons. The film boasts decent production and aesthetic values. While some transitions and the 'Afterlife' scene are jarring, the era in which the events occur is wellcaptured with fashionable hot pants to crop tops and hairstyles. Each

shot feels like a period frame. The

bition, struggle, and fate.

film does not only transport you on its visuals alone. The wonderfully designed rock soundtrack layers in emotional fervour, as events swirl into a horrific frenzy. Overall- the film is a familiar and relatable tale of emotional repression, misplaced am-

A canvas of perspective and perception

et around a school and dealing with issues about truth, perspectives, and getting to the bottom of things, this film is about growing up and understanding how people deal with each other

What you see and what you perceive may not be the truth of the whole story, and the director Hirokazu Koreeda, known for previously critically acclaimed films Shoplifters

and *The Brokers*, weaves this very brilliantly. The film begins with a building fire observed from a distance by Saori (Sakura Ando), a single mother, and her son, Minato (Soya Kurokawa).

Over the next few days, Saori notices her son exhibiting strange behaviour like-asking weird questions, inexplicably cutting his hair, and at one point, throwing himself out

On questioning Minato, Saori suspects that Mr. Hori (Eita Nagayama), his sixthgrade teacher, maybe bullying him.

As the narrative unfolds, you wonder, "Who is the monster?" despite Minato asking this question very early in the film.

When Saori takes her concerns to the school principal, Makiko Fushimi (Yuko Tanaka), and confronts Mr. Hori, everyone is overly apologetic despite showing no empathy or concern. But when Minato's strange behaviour continues, Saori con-

fronts Mr. Hori directly. He informs her it is Minato who is bullying another student, Yori Hoshikawa (Hinata Hiiragi).

Wanting to get to the bottom of this, Saori visits Hoshikawa's house and learns that he, despite his strange behaviour, is fond and concerned for Minato.

Eventually, Mr. Hori is removed from his position. One stormy day, to plead his innocence, Hori lands up at Minato's house, it is then that Saori realises Minato has gone missing, only to find him and Hoshikawa in a deserted cabin in the nearby

mountain. The fire and the stormy day bookend the events in this cinematic

verse. Everything in the story happens between these two events and is used effortlessly as signposts to navigate the plot.

Inspired by Akira Kurosawa's 1950 classic Rashomon, the screenplay of this film too tells the story from multiple perspectives. The story unrayels

three times. First by Saori, then from Mr. Hori's perspective, and lastly from the perspective of Minato and Hoshikawa.

How the narrative evolves is highly dependent on the point-of-view of the narrator. The entire film is like a puzzle, revealing and unravelling facts that happen and later you relate to them. It dissects; reticence shame, and desire in society, and goes about some

unexpected emotional areas that one is not ready and it takes you by surprise. Each character is well-etched, and the ensemble cast delivers a good performance that you get subsumed into their lives. In fact, the sense of discovery, especially their personal trauma, drama, and sometimes closely held beliefs and secrets, is

> Written by Yuji Sakamoto, the film won the best screenplay and the

Queer Palm at Cannes Film Festival 2023. Honestly, the queer component is so subtle that if you blink, you might miss it.

Good writing and intense performance keeps you engaged

his review of Aarya Antim Vaar or Season 3 of the crime thriller, is based on episode numbers five to eight.

Told in a non-linear manner, Episode 5, titled, 'Sherni Ke Shikar Ka Waqt Aa Gaya Hai, 'which means, 'It's time to hunt the Tigress,' begins with a bait. We see a brutal-

ly wounded Aarya (Sushmita Sen) holding her mobile phone to her ear. A voiceover that tells us, "This may be the mid-point of the story or..." We hear a gunshot. Hit by a bullet, Aarya falls sprawled on the floor, and the narrator continues, "This may be the end of the story."

This less than 15-second scene is enough to hook you on. The narrative then rewinds two weeks earlier to tell us how and why Aarya- was shot.

For those not initiated into the series, Aarya Sareen (Sushmita Sen) is just a working mother, roped into the criminal world due to her family connection. She is trapped- in a twisted game of survival. To keep her children safe, she fights and conspires against the forces, especially the drug cartel, the police, and the Child Welfare Officer.

How she single-handedly struggles to keep her kids and near and dear ones together while running her "business" forms the ongoing crux of the



volved.

Title: *Aarya Antim* Vaar Directors: Kapil Sharma,

Shraddha Pasi Jairath, Ram Madhvani Cast: Sushmita Sen, Ila Arun, Sikander Kher, Vikas

> Where: Streaming on Disney+ Hotstar Rating: ★★★

Kumar, Vishwajeet Pradhan

ishment for the Informer is Death) brings to the fore the rules of the underworld. The episodes that follow are 'Aarya Sareen Is An Unfit Mother', and Paanje Nikalne Ka Waqt Aa Gaya' (The Time Has Come To Get The Claws Out).

sixth episode titled, 'Khabri

Ki Saaza Maut' (The Pun-

Adapted from the Dutch Series Penoza, the writing by Amit Raj, Khushboo Raj,

and Anu Singh Choudhury stands out for the meticulous attention to detailing the story. The characters are well-defined, and the scenes are focused, taut, and intense. There is not a moment of liberty taken or digression in the storytelling.

Aarya is Sushmita Sen's canvas, and she does full justice to her role. Her interactions with the other characters are both fascinating and disturbing. Her demeanour on screen is palpable as she adds a lay of psychological depth to the narrative, especially in episode seven when she has a showdown with the Child Welfare Officer.

She is aptly supported by ace actors who slip into their characters with natural grace. Among the cast are Viren Vazirani, Virti Vaghani, and Pratyaksh Panwar, who portray Aarya's children Veen, Arundhati, and Aditya. Ila Arun essays Nalini, a Royal from Rajasthan, Vikas Kumar portrays ACP Younus Khan, and Sikander Kher plays Daulat,

The song 'Bade Achhe Lagte

Aarya's handyman.

Hain' oft played along with other numbers as background score to uplift the scenes. Overall, the episodes are engaging and end cliffhanger, ensuring you look forward to the next season.

REVIEWS

Missed potential rather than genuine engagement



predator, showcases a journalist's travails against the system to bring the

predators to book. Set in Bihar, the narrative follows Vaishali Singh, a determined journalist played by the competent Bhumi Pednekar, as she

delves into the dark underbelly of the vicious shelter home system, especially housing girls. The story brings to the fore how the girls are abused, exploited, and even murdered.

The film is intended to be provocative, igniting the call for ethics, principles, and morals today. While the subject matter is undeniably significant, the execution of this film falls short, resulting in an unsatisfactory viewing experience.

To begin with, the film is perfunctorily mounted. It relies on tired tropes and cliches to drive the narrative forward. The plot is talk heavy, clunky, with undramatic and sluggish pacing. The heinous laughs and crass conversations among the male supporting cast take centre stage, making the entire set-up appear forced.

Also, keeping in mind today's media scenario, the script is a bit basic and outdated. It's only after the mid-point that - there is a mention of social media platforms. While Vaishali's tenacity to pursue the wrongdoings is commendable, the story lacks nuance and passively provides meaningful insights into the complexities of the issues

Pednekar delivers a solid performance,

capturing Vaishali's pas-Title: Bhakshak Cast: Bhumi Pednekar, Sanjay Mishra, Sai Tamhankar, Aditya Shrivastava, Surya Sharma, Chittaranjan Tripathy, Durgesh Kumar Where: Streaming on Netflix Rating: ★★

sion and resolve while with Bhaskar (Sanjay Mishra) at Koshish News, a local broadcast channel, but her character lacks depth and development, feeling more like a generic archetype middle-class, married woman pursuing a career in B-town than a fully realised passionate indi-

vidual. The entire cast is sincere, and they deliver what is expected, of them. Sanjay Mishra - as Bhaskar, Vaishali's colleague, is underutilised, and Sai Tamhankar's character, Jasmeet Gaur, the Superintendent of Police, works as the deus ex machina in the plot.

Furthermore, the supporting characters, be it the politician, the caretaker of the Girls Shelter Home, the henchmen, or anyone else, are all stereotypical, serving as mere plot devices rather than fully fleshed-out individuals. None of them stand apart. So is the case with the victims. Visually, with dark tones, congested and lacklustre aesthetic frames, Kumar Sourabh's cinematography is competent, where Munawwarpur and Patna are fleetingly captured.

The poignant lyrics of the song *Ganga* and the background score lift the spirit of the narrative, but by then, it is too late to transcend mediocrity, which ultimately undermines its impact, leaving the viewers with a sense of missed potential rather than genuine engagement.

Overall, Bhakshak is a well-intentioned film. In the end, as one of the characters says, "Baki aap samajdhar hain.

